



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2014—पौष 20, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

क्र. ई-5-872-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती प्रियंका दास,
आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी को
दिनांक 16 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक अठारह दिन का
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ
दिनांक 14 एवं 15 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को
जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती प्रियंका दास की अवकाश अवधि में श्री जे. समीर
लकरा, अपर कलेक्टर, सिवनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-
साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन
अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास को अस्थायी
रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती प्रियंका दास द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, सिवनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे. समीर
लकरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास को अवकाश वेतन
एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व
मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास
अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-888-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, अनुविभागीय अधिकारी, बीना जिला-सागर को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 1 जनवरी 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री कर्मवीर शर्मा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, बीना जिला-सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री कर्मवीर शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कर्मवीर शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्र. ई-5-858-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विकास नरवाल, आयएस., कलेक्टर, जिला नीमच को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री विकास नरवाल की अवकाश अवधि में श्री पी. आर. कतरोलिया, भाप्रसे अपर जिला दण्डाधिकारी, नीमच को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला नीमच का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला नीमच के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विकास नरवाल द्वारा कलेक्टर, जिला नीमच का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. आर. कतरोलिया, कलेक्टर, जिला नीमच के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-3-2-2013-एक-4.—राज्य शासन एतद्वारा नगरपालिक निगम सागर जिला सागर के महापौर एवं नगर परिषद् मझौली जिला सीधी के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन 2013-14 हेतु मतदान दिनांक 06 जनवरी 2014 सोमवार को जिले के संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है।

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम, (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्र. ई-5-370-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आई. एस. दाणी, भाप्रसे महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल तथा महानिदेशक, अटल बिहारी बाजपेयी लोक सेवा प्रशासन संस्थान तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, साप्रवि (विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2013 द्वारा दिनांक 17 से 31 दिसम्बर 2013 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विद्या भोसले, अवर सचिव "कार्मिक".

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता
संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

क्र. एफ 11-05-2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स-81 (ए) (सी) (डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मण्डल में संचालक के पद पर श्री अन्टोनी डिसा तत्कालीन अपर मुख्य सचिव

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के स्थान पर श्री अशोक वर्णवाल, सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल को संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चंदेल, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्र. 3(ए)10-2006-इक्कीस-ब(एक).—यह कि श्री अशोक कुमार जैन, जो कि उच्च न्यायिक सेवा में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सतना के पद पर कार्यरत थे, (वर्तमान में निलंबित मुख्यालय जबलपुर) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में उनके द्वारा कदाचरण किया जाना साबित पाया गया है।

दिनांक 03 दिसम्बर 2013 को आयोजित मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुलकोर्ट मीटिंग में श्री अशोक कुमार जैन को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाना निश्चय किया गया।

उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख एवं समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि श्री अशोक कुमार जैन को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाए।

अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम, 1966 के नियम 10 के उप नियम (सात) के प्रावधानों के अनुसार उच्च न्यायालय की अनुशंसा को मान्य करते हुए, राज्य शासन श्री अशोक कुमार जैन, तत्कालीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सतना, (वर्तमान में निलंबनाधीन मुख्यालय जबलपुर) को इस आदेश की सूचना प्राप्ति की दिनांक के अपराह्न से अनिवार्य सेवानिवृत्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वर्मा, सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2014

क्र. एफ.13-56-2012-तेरह.—यतः, राज्य में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-29-2013-बी-11, दिनांक 26 सितम्बर 2013 के द्वारा “उद्योग संवर्धन नीति, 2010 तथा कार्य योजना (2012 तक यथा संशोधित)” के प्रावधानों के अंतर्गत मेसर्स फोर्स मोटर्स लिमिटेड की जिला धार की विद्यमान इकाई की विविधीकरण

परियोजना को ग्रिड से प्रदाय की जाने वाली विद्युत के उपभोग पर 20 वर्ष के लिए शुल्क के संदाय से पूर्णतः छूट प्रदान की है।

अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012) की धारा 5 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मेसर्स फोर्स मोटर्स लिमिटेड की जिला धार में स्थित इकाई की विविधीकरण परियोजना हेतु ग्रिड से प्रदाय की गई विद्युत के उपभोग पर शुल्क के संदाय से 20 वर्ष के लिए पूर्णतः छूट प्रदान करती है।

यह अधिसूचना “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी तथा 20 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

No. F.13-56-2012-XIII.—WHEREAS, in order to encourage establishment of industries in the State, the Commerce, Industries and Employment Department vide its Order No. F-16-29-2013-B-11 dated 26th September 2013 has wholly exempted the diversification project of the existing unit of M/s Force Motors Limited at District Dhar from payment of duty on consumption of the electricity supplied from the grid for 20 years under “Industrial Promotion Policy, 2010 and Action Plan (as amended up to 2012)”;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (i) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, wholly exempt the diversification project of the existing unit of M/s Force Motors Limited at District Dhar from payment of duty on consumption of the electricity supplied from the grid for 20 years.

This notification shall come in to force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette and will remain in force for 20 years.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 18th November 2013

ORDER

No. 8511-2013-13.—WHEREAS, M/s kalpataru Satpura Transco Pvt. Ltd. having its registered office at 101, Part-III, GIDC Estate, Sector-28, Gandhinagar 382 028 (Gujarat), having a Project specific intra state license for Transmission of electricity under the Electricity Act 2003 (36 of 2003) intend to lay 400 KV DCDS overhead Transmission Line from Satpura Thermal Power Station Sarni to 400 KV sub-station Ashta of MP Power

Transmission Company Ltd. The firm has obtained the permission under section 68 of the Electricity Act, 2003 for laying/construction of above overhead Transmission Line. The Applicant now has applied for conferring the powers of Telegraph Authority under section 164 of the Electricity Act, 2003 for placing support and laying above overhead Transmission Line after inviting objections from public by notifying its intention to lay above line, in MP Gazette and two Newspapers. For installing above mentioned intra state transmission line for intra State transmission of electricity, Energy Department, Madhya Pradesh Government as per provisions of Section 164 of the Electricity Act, 2003 confers upon the applicant i. e. M/s Kalpataru Satpura Transco Private Limited, all powers which telegraph authority possesses under the Indian Telegraphy Act, 1885 (13 of 1885) with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained, subject to following terms and conditions, namely:—

1. The approval is granted for period of 25 (twenty five) years from the date of grant of Transmission License to the applicant from MPERC.
2. The power has been conferred for the specific Transmission Line mentioned above, and it is not a general authorization.
3. The power is subject to Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885).
4. The erection of proposed line will be done by the Applicant subject to compliance of (a) the requirement of the relevant provisions on the Electricity Act-2003, as amended from time to time and the Rules and regulations framed thereunder and (b) the Rules governing the Overhead Lines as specified in the Indian Electricity Rules, 1956 read with the "Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010" framed under the Electricity Act-2003.
5. The performance and fulfillment of all obligations of M/s Kalpataru Satpura Transco Pvt. Ltd. shall be governed by the provisions of the Transmission Agreement executed on dated 06-06-2013 in between MPPTCL ("Authority") & M/s Kalpataru Satpura Transco Pvt. Ltd. ("Concessionaire").
6. The Applicant shall follow all regulations/codes issued by MPERC regarding transmission, operation & maintenance, open access, etc.
7. The proposed route involves forest land as shown in the route map. M/s KSTPL shall have to seek the permission of competent authority under Forest Conservation Act, 1980 and as amended from time to time before initiating construction activities of transmission line. However, Authority (MPPTCL) shall procure Applicable Permits relating to environmental protection conservation of the Site and forest clearance as per provisions of the Transmission Agreement.
8. In case the proposed line route involves crossings of transmission lines, Railway lines, aerodrome area, defence, vicinity of telecom lines, the Applicant shall take necessary permission from the appropriate Authority of concerned department.
9. For any dispute between the Applicant and owners of private land on which the line passes, the matter will be referred to District Magistrate and the Applicant will pay compensation to land owner as may be decided by the District Magistrate.
10. The Applicant shall make least damage to crop while executing works, and shall pay the compensation as may be decided by the District Magistrate.
11. The Applicant shall comply with the conditions/ requirements mentioned in reference to permission under Section 68 of the Electricity Act 2003.
12. The Applicant shall keep immune the State Government of the disputes/settlements between him and any other party.
13. The approval is without prejudice to the terms and conditions of Transmission Agreement signed between MPPTCL and M/s KSTPL on 06-06-2013.
14. Govt. of M. P. may withdraw this approval at any time after giving a one month notice.
15. The permission is effective from the date of issue of this order.

मुकुल धारीवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्र. 21-एस. डब्ल्यू.-07-बंधक श्रम-2013.—बंधक श्रमिक (प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर, जिला देवास, देवास जिले के लिये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से तीन वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन करता हूँ:—

उपखण्ड सोनकच्छ, जिला-देवास

धारा 13 की उपधारा (3) “अ” के अधीन

अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सोनकच्छ. अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा (3) “ब” के अधीन अ. जा./
अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य.

1. श्री सूरजमल बुनकर, सदस्य
सोनकच्छ.
2. श्रीमती गीता पति मुकुन्द (अ. जा.) सदस्य
निवासी-रजापुर, पूर्व मण्डी प्रतिनिधि
एवं वर्तमान जनपद सदस्य.
3. श्री प्रेमसिंह जी मालवीय, सदस्य
सोनकच्छ.

धारा 13 की उपधारा (3) “स” के अधीन
जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता.

1. श्री राधेश्याम गजेश्वर, सदस्य
सोनकच्छ.
2. सुश्री कविता पिता मनोहरलाल सोनी, सदस्य
सोनकच्छ.

धारा 13 की उपधारा (3) “द” के अधीन— शासकीय
सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सदस्य
जनपद पंचायत, सोनकच्छ/ टोंकखुर्द.
2. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, सदस्य
जनपद पंचायत, सोनकच्छ.

धारा 13 की उपधारा (2) “ई” के अधीन

प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाखा सोनकच्छ.

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी

तहसीलदार सोनकच्छ, जिला देवास. सदस्य

उपखण्ड देवास, जिला-देवास

धारा 13 की उपधारा (3) “अ” के अधीन

अनुविभागीय दण्डाधिकारी, देवास. अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा (3) “ब” के अधीन अ. जा./
अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य.

1. श्री सालिगराम पिता छिताजी मालवीय, सदस्य
सुनवानी गोपाल, देवास.
2. श्री रामेश्वर पिता भवानीराम दायमा, सदस्य
20/3 भवानी सागर देवास.
3. श्रीमती रजनी पति जगदीश वर्मा सदस्य
18 वासुदेव पुरा, देवास.

धारा 13 की उपधारा (3) “स” के अधीन
जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता.

1. श्री दिनेश भूतड़ा पिता श्री बालकिशन भूतड़ा, सदस्य
सुभाष चौक देवास.
2. श्री भारतसिंह पदलावदा, सदस्य
ग्राम पटलावा, तहसील व जिला देवास.

धारा 13 की उपधारा (3) “द” के अधीन— शासकीय
सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सदस्य
जनपद पंचायत देवास.
2. अनुविभागीय अधिकारी, सदस्य
ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें, देवास.
3. परियोजना अधिकारी, सदस्य
महिला एवं बाल विकास विभाग, देवास.

धारा 13 की उपधारा (2) “ई” के अधीन

प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मर्यादित देवास.

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी

तहसीलदार, तहसील देवास. सदस्य

उपखण्ड कन्नौद, जिला-देवास

धारा 13 की उपधारा (3) “अ” के अधीन

अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कन्नौद अध्यक्ष
धारा 13 की उपधारा (3) “ब” के अधीन अ. जा./
अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य.

1. श्री लक्ष्मणसिंह (अ. जा.) सदस्य
ग्राम गुडबेल, तहसील कन्नौद.
2. श्री कमलकिशोर राठौर ((अ.ज.जा.) सदस्य
ग्राम शेरगुना, तहसील कन्नौद.
3. श्री महेश मालवीय (अ. जा.) सदस्य
निवासी-गोला गुठान.

धारा 13 की उपधारा (3) "स" के अधीन
जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता.

1. श्री एन. पी. सराटे, सदस्य
अजनास रोड़, खातेगांव.

2. डॉ. शिव पटेल, कन्नौद, सदस्य

धारा 13 की उपधारा (2) "द" के अधीन— शासकीय
सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सदस्य
जनपद पंचायत कन्नौद.

2. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, सदस्य
जनपद पंचायत, कन्नौद.

3. परियोजना अधिकारी, सदस्य
महिला एवं बाल विकास विभाग, कन्नौद.

धारा 13 की उपधारा (2) "ई" के अधीन

प्रबंधक, बैंक आफ इंडिया, शाखा कन्नौद. सदस्य

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी

तहसीलदार, तहसील देवास. सदस्य

उपखण्ड बागली, जिला-देवास

धारा 13 की उपधारा (3) "अ" के अधीन

अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बागली अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा (3) "ब" के अधीन अ. जा./

अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य.

1. श्री कमलसिंह नानुराम अवल्दा, सदस्य

2. श्री प्रेमसिंह खेडेकर कनाड, सदस्य

3. श्री गोपाल रायसिंह, सदस्य
पंच, ग्राम देवगढ़.

धारा 13 की उपधारा (3) "स" के अधीन सदस्य
जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता

1. श्री मोतीलाल पटेल, सदस्य
बागली जिला देवास.

2. श्री राजकुमार कालूजी, सदस्य
ग्राम घावडिया, तहसील कन्नौद.

धारा 13 की उपधारा (3) "द" के अधीन— शासकीय
सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सदस्य
जनपद पंचायत बागली.

2. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, सदस्य
जनपद पंचायत, बागली.

3. परियोजना अधिकारी, सदस्य
महिला एवं बाल विकास विभाग, बागली.

धारा 13 की उपधारा (2) "ई" के अधीन
प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सदस्य
शाखा बागली.

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी
तहसीलदार, तहसील बागली सदस्य

क्र. 22-एस. डब्ल्यू.-07-बंधक श्रम-2013.—बंधक श्रमिक
(प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को
प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर, जिला देवास, देवास
जिले के लिये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने
की तिथि से तीन वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार जिला स्तरीय
सतर्कता समिति का गठन करता हूँ:—

जिला-देवास

धारा 13 की उपधारा (2) "अ" के अधीन

जिला दण्डाधिकारी, देवास अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा (2) "ब" के अधीन अ. जा./
अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य.

1. श्री कैलाश डाबी, (अ. जा.) सदस्य
51, मोती बंगला, देवास.

2. श्री बजरंग बैरवा, अ. जा. सदस्य
23/2 शंकरगढ़, बालगढ़, देवास.

3. श्री गोपाल पंवार, अभिभाषक (पिछड़ा वर्ग) सदस्य
41, राजभवन नयापुरा, देवास.

धारा 13 की उपधारा (2) "स" के अधीन
जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता

1. श्री मोतीलाल पटेल, सदस्य
बागली, जिला देवास.

2. श्री विष्णूप्रसाद वर्मा, सदस्य
निवासी-जामगोद, जिला देवास.

धारा 13 की उपधारा (2) "द" के अधीन— शासकीय
सदस्य

1. पुलिस अधीक्षक, देवास. सदस्य

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी सदस्य
जिला पंचायत, देवास.

3. जिला संयोजक, सदस्य
आदिम जाति कल्याण, देवास.

धारा 13 की उपधारा (2) "ई" के अधीन

1. अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक आफ इंडिया,
जिला देवास.

एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर.

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश
अनूपपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2013**

क्र. 8175-आर.डी.एम.-साइलेंस जोन-2013.—मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं नंद कुमारम्, जिला दण्डाधिकारी अनूपपुर, मध्यप्रदेश, अनूपपुर जिले के निम्नानुसार क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ नीचे अंकित शांत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिगत किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल, लाउडस्पीकर, साउण्ड बाक्स, वाहनों के प्रेसर हार्न आदि शामिल हैं, का उपयोग नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति, उपरोक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है तो वह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 (1) (2) एवं 16 के अंतर्गत दण्डनीय होगा:—

सरल क्रमांक (1)	स्थान का नाम (2)	घोषित क्षेत्र की सीमा (3)	कोलाहल प्रतिबंधित अवधि (4)
1	जिला एवं सत्र न्यायालय अनूपपुर.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक
2	कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर.	—,—	प्रातः 10.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक
3	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय अनूपपुर.	—,—	प्रातः 10.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक
4	शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर.	—,—	प्रातः 8.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक
5	जिला चिकित्सालय अनूपपुर	—,—	प्रातः 10.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक
6	शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर.	—,—	प्रातः 10.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक
7	शासकीय माध्यमिक विद्यालय सामतपुर	—,—	प्रातः 10.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

नंद कुमारम्, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला आगर मालवा मध्यप्रदेश

आगर मालवा, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

क्र. एस. डब्ल्यू.-13-56.—मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं डी. डी. अग्रवाल, जिला दण्डाधिकारी, आगर मालवा, आगर मालवा (म. प्र.) जिले के निम्नानुसार क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि निम्न “शान्त क्षेत्र” में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल, लाउड स्पीकर, साउण्ड बाक्स आदि शामिल हैं का उपयोग नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तिगत ऐसा करते पाया जाता है तो वह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 (1) (2) एवं 16 के अंतर्गत दण्डनीय होगा:—

स. क्र. (1)	स्थान का नाम (2)	घोषित क्षेत्र की सीमा (3)	कोलाहल प्रतिबंधित अवधि (4)
1	न्यायालय परिसर आगर मालवा	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
2	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कार्यालय आगर मालवा.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
3	पुलिस अधीक्षक, कार्यालय आगर मालवा	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)	(4)
4	शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगर मालवा.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
5	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर आगर मालवा.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
6	शासकीय सिविल अस्पताल आगर मालवा.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	सम्पूर्ण दिन
7	न्यायालयीन परिसर, सुसनेर.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
8	शासकीय अस्पताल, सुसनेर.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	सम्पूर्ण दिन
9	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यालय सुसनेर.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
10	शासकीय महाविद्यालय, सुसनेर.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
11	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर, सुसनेर.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
12	न्यायालयीन परिसर, नलखेड़ा.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
13	तहसील परिसर नलखेड़ा.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
14	शासकीय अस्पताल, नलखेड़ा.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	सम्पूर्ण दिन
15	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर, नलखेड़ा.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
16	कार्यालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी का परिसर, सोयत.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
17	शासकीय अस्पताल, सोयत	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	सम्पूर्ण दिन
18	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर, सोयत.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
19	तहसील परिसर, बड़ौद.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
20	शासकीय अस्पताल परिसर, बड़ौद.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	सम्पूर्ण दिन
21	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर, बड़ौद.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
22	कार्यालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी का परिसर, कानड़.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
23	शासकीय अस्पताल परिसर, कानड़.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	सम्पूर्ण दिन
24	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर, कानड़.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा.

डी. डी. अग्रवाल, जिला दण्डाधिकारी.

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2013

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-2013-14-535.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु

श्री दुर्गा खण्डसारी शुगर मिल मेन्दराना पानसेमल, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बड़वानी/पानसेमल	फैक्ट्री गेट	28	1220.40
योग . .				1220.40

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

श्री दुर्गा खांडसारी (शुगर) मिल्स, मेन्दराना
पो. कानसुल, तह. पानसेमल, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश
पानसेमल तहसील में गन्ना आच्छादित क्षेत्र की सूची

अ. क्र.	गांव	गन्ना खरीदी केन्द्र	गन्ना आच्छादित रकबा (हेक्टर में)		
			जड़ी गन्ना	बोया गया गन्ना (नया)	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पानसेमल	फैक्टरी गेट	14.40	2.80	17.20
2	खड़की	फैक्टरी गेट	4.40	13.00	17.40
3	दोंदवाडा	फैक्टरी गेट	3.60	4.50	8.10
4	कानसुल	फैक्टरी गेट	24.00	15.00	39.00
5	भमराटा	फैक्टरी गेट	16.60	9.00	25.60
6	जाहुर	फैक्टरी गेट	9.00	24.40	33.40
7	गोंगवाड़ा	फैक्टरी गेट	25.40	22.90	48.30
8	आमदा	फैक्टरी गेट	30.40	18.60	49.00
9	जुनापानी	फैक्टरी गेट	42.80	38.80	81.60
10	पिपरानी	फैक्टरी गेट	4.40	0.00	4.40
11	पन्नाली राजपुरा	फैक्टरी गेट	0.00	3.40	2.40
12	चुनाभट्टी	फैक्टरी गेट	0.00	2.40	3.40
13	जलगोन	फैक्टरी गेट	29.40	11.80	41.20
14	बंधारा खुर्द	फैक्टरी गेट	5.00	2.20	7.20
15	पिपलोद	फैक्टरी गेट	0.00	3.00	3.00
16	जैतपूरा	फैक्टरी गेट	1.00	1.20	2.20
17	मेंद्राना	फैक्टरी गेट	29.20	24.60	53.80
18	मेलन	फैक्टरी गेट	24.00	23.40	47.40
19	टेमला	फैक्टरी गेट	10.40	24.40	34.80
20	भातकी	फैक्टरी गेट	41.80	27.40	69.20
21	बांद्रयावड़	फैक्टरी गेट	4.00	1.20	5.20
22	बेहड़िया	फैक्टरी गेट	42.40	22.40	64.80
23	खेतिया	फैक्टरी गेट	156.80	176.20	333.00
24	निसरपुर	फैक्टरी गेट	35.60	45.20	80.80
25	भड़गोन	फैक्टरी गेट	36.80	32.60	69.40
26	टेमली	फैक्टरी गेट	4.80	2.80	7.60
27	मल्फा	फैक्टरी गेट	6.60	5.20	11.80
28	मोरतलाई	फैक्टरी गेट	20.60	38.60	59.20
कुल गन्ना आच्छादित रकबा			623.40	597.00	1220.40

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-2013-14-576.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु जवाहरलाल नेहरू सहकारी शक्कर कारखाना सरवर देवला जिला खरगोन, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर) (5)
1	खरगोन/कसरावद	कसरावद	56	1353.094
2	खरगोन/खरगोन	खरगोन	4	59.057
3	खरगोन/गोंगवा	गोंगवा	12	109.304
4	खरगोन/सेंगवा	सेंगवा	1	2.178
5	खरगोन/भीकनगांव	भीकनगांव	9	53.588
6	खरगोन/झिरन्या	झिरन्या	3	2.356
7	खरगोन/भगवानपुरा	भगवानपुरा	2	26.372
8	खरगोन/महेश्वर	महेश्वर	37	699.963
9	खरगोन/बड़वाह	बड़वाह	42	277.981
10	खण्डवा/पुनासा	पुनासा	20	78.948
योग . .			186	2654.833

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि. खरगोन
यूनिट सरवर देवला, तह. कसरावद, जिला खरगोन
विकासखण्ड कसरावद, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

अ. क्र. (1)	गन्ना ग्राम का नाम (2)	गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में) (3) (4) (5)			रिमार्क (6)
		रोपा (3)	जड़ी (4)	योग (5)	
1	कसरावद	49.032	64.381	113.413	
2	मोगांवा	23.717	42.623	66.340	
3	ब्राम्हणगांव	7.964	6.660	14.623	
4	दोगांवा	3.040	0.000	3.040	
5	ककरियाव	7.417	4.340	11.757	
6	बड़गांव	27.004	28.960	55.964	
7	कठोरा (माकडखेडा)	22.182	20.595	42.777	
8	माकडखेडा	70.518	81.696	152.215	
9	सायता	35.425	37.498	72.923	
10	नावडाटोडी	3.101	0.834	3.935	
11	बोथू	33.968	45.648	79.615	
12	छोटी कसरावद	3.870	0.000	3.870	
13	भीलगांव	30.563	12.352	42.915	
14	डोंगरगांव	8.571	10.923	19.494	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	बालसमुद	20.198	16.842	37.040	
16	ढालखेड़ा	20.490	12.623	33.113	
17	काटकुर	0.725	0.000	0.725	
18	साटकुट	4.457	0.874	5.332	
19	पागाखेड़ी	0.563	2.567	3.130	
20	सलीमपुरा	0.968	0.000	0.968	
21	बामंदी	0.579	0.000	0.579	
22	महाराजखेड़ी	1.174	0.000	1.174	
23	खलसाटक	5.320	1.883	7.202	
24	सरवरदेवला	55.749	20.555	76.304	
25	मिर्जापुर	4.996	0.000	4.996	
26	बहादुरपुरा	1.308	0.000	1.308	
27	पिपलई	1.364	0.000	1.364	
28	बोरावा	17.502	13.057	30.559	
29	धरमपुरी	2.425	4.409	6.834	
30	भनगांव	15.672	12.045	27.717	
31	कवडी	2.101	0.000	2.101	
32	अहिल्यापुरा	5.911	3.146	9.057	
33	करोँदिया	3.696	0.000	3.696	
34	गोपालपुरा	9.502	5.522	15.024	
35	ओझरा	4.097	5.551	9.648	
36	सावदा	6.093	0.000	6.093	
37	बिठेर	2.445	1.356	3.802	
38	चंदनपुरी	6.162	0.538	6.700	
39	उटावद	27.980	27.846	55.826	
40	उमरिया	10.016	0.000	10.016	
41	सोनखेड़ी	4.040	0.000	4.040	
42	सतवाडी	0.356	2.239	2.595	
43	बोरगांव	3.372	0.000	3.372	
44	मुलठान	0.854	0.000	0.854	
45	कमोदवाडा	2.206	0.000	2.206	
46	मदरानिया	0.939	4.077	5.016	
47	रहडकोट	0.960	0.364	1.324	
48	बलकवाडा	0.000	0.960	0.960	
49	बसलाय	1.619	0.000	1.619	
50	बामखल	0.441	0.000	0.441	
51	टिगरियाव	15.486	4.077	19.563	
52	कोगावा	12.401	4.555	16.955	
53	अमलाथा	118.11	95.911	214.020	
54	लेपा	14.462	3.769	18.231	
55	नहारखेड़ी	10.397	2.992	13.389	
56	ससाबड	1.324	3.996	5.320	
योग . .		1013.401	818.956	1353.094	

विकासखण्ड खरगोन, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में)			रिमार्क
		रोपा	जड़ी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	लिक्खी	1.636	0.000	1.636	
2	बनार	0.000	1.433	1.433	
3	सिनखेडा	1.599	3.150	4.749	
4	डेहरी	26.870	24.368	51.239	
	योग . .	32.121	28.951	59.057	

विकासखण्ड गोगावां, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में)			रिमार्क
		रोपा	जड़ी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बेजापुर	13.243	3.235	16.478	
2	बिलखेड बुजुर्ग	4.984	2.741	7.725	
3	दयालपुरा	18.372	0.579	18.951	
4	ठिबगांव	0.000	2.745	2.745	
5	सुरपाला	4.980	0.000	4.980	
6	जामन्या	1.619	0.401	2.020	
7	बीड	0.385	1.632	2.016	
8	कुकडोल	13.243	5.591	18.834	
9	कुम्हारखेडा	0.826	0.000	0.826	
10	उमरखली	13.794	0.000	13.794	
11	भसनेर	10.850	5.182	16.032	
12	देवली	0.182	4.721	4.903	
	योग . .	82.478	26.826	109.304	

विकासखण्ड सेगांव, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में)			रिमार्क
		रोपा	जड़ी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दशनावल	0.000	2.170	2.170	
	योग . .	0.000	2.170	2.170	

विकासखण्ड भीकनगांव, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में)			रिमार्क
		रोपा	जड़ी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मछलगाना	1.198	2.308	3.506	
2	शगुर-भगुर	1.190	16.543	17.733	
3	भीकनगांव	0.000	0.421	0.421	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	बमनाला	1.057	0.615	1.672	
5	रेहगांव	2.891	1.109	4.000	
6	सिरलाय	0.000	2.138	2.138	
7	शक्कर खेडी	3.826	6.717	10.543	
8	नुरियाखेडी	1.130	2.668	3.798	
9	सेल्दा	2.486	7.291	9.777	
	योग . .	13.777	39.810	53.588	

विकासखण्ड झिरन्या, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में)			रिमार्क
		रोपा	जडी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खोई	1.024	0.000	1.024	
2	नानकोडी	0.000	0.186	0.186	
3	चेनपुर	0.105	1.040	1.146	
	योग . .	1.130	1.227	2.356	

विकासखण्ड भगवानपुरा, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में)			रिमार्क
		रोपा	जडी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दामखेडा	8.166	1.198	9.364	
2	बाडी	6.964	10.045	17.008	
	योग . .	15.130	11.243	26.372	

विकासखण्ड महेश्वर, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में)			रिमार्क
		रोपा	जडी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जलकोटा	59.462	57.798	117.259	
2	खराडी	33.312	21.425	54.737	
3	इटावदी	8.964	7.146	16.109	
4	कुडियां	2.960	6.381	9.340	
5	माचंदा	4.198	3.397	7.595	
6	महेश्वर	24.020	37.004	61.024	
7	गांधी नगर	4.045	0.000	4.045	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	बबलई	0.883	0.000	0.883	
9	मण्डलेश्वर	11.150	14.915	26.065	
10	मोगांवा	0.757	0.000	0.757	
11	ठनगांव	1.571	1.045	2.615	
12	छोटी खरगोन	9.206	17.227	26.433	
13	करोदिया	1.628	1.178	2.806	
14	चुन्दडिया	1.259	0.000	1.259	
15	सिरस्या	1.138	0.000	1.138	
16	चोली	5.680	5.700	11.381	
17	धरगांव	17.490	24.449	41.939	
18	सुलगांव	21.109	16.773	37.883	
19	गोगांवा (मण्डलेश्वर)	8.385	6.899	15.283	
20	नान्द्रा	19.887	39.437	59.324	
21	मातमूर	13.437	9.182	22.819	
22	देव पिपल्या	1.676	7.008	8.684	
23	उरवाय	11.271	4.818	16.089	
24	मोहना	2.648	1.575	4.223	
25	गुजर मोहना	1.105	1.680	2.785	
26	आशापुर	0.000	0.717	0.717	
27	महेतवाडा	13.490	4.170	17.660	
28	बडवी	8.012	4.356	12.368	
29	पथराड	11.85	10.70	22.547	
30	सोमाखेडी	8.348	1.567	9.915	
31	चिकली	0.947	0.000	0.947	
32	कतरगांव	2.332	6.101	8.433	
33	बंडेरा	5.385	9.449	14.834	
34	होदडिया	2.012	2.012	4.024	
35	कवाणा	8.664	16.381	25.045	
36	चिराखान	1.348	0.000	1.348	
37	भुदरी	11.587	18.263	29.850	
योग . .		341.215	358.749	699.963	

विकासखण्ड बड़वाह, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टर में)			रिमार्क
		रोपा	जडी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नई बेहगांव	7.870	3.320	11.190	
2	बेहगांव	0.830	0.000	0.830	
3	पाडयाघटखेड़ी	0.000	2.429	2.429	
4	पिटाम्बली	5.316	9.377	14.692	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	कोदयाखेडी	15.028	10.247	25.275	
6	कुम्भिया	2.486	0.000	2.486	
7	बफलगांव	2.850	2.947	5.798	
8	अमलाथा	4.101	3.733	7.834	
9	मुरल्ला	2.972	3.915	6.887	
10	सेमरला	0.000	0.385	0.385	
11	भोराई	3.704	1.215	4.919	
12	बावडी खेडा	2.150	3.615	5.765	
13	पालसूद	5.559	0.000	5.559	
14	नांदिया	9.915	4.838	14.753	
15	अस्तूरिया	12.069	21.798	33.866	
16	खोडी	0.717	0.000	0.717	
17	टोकी	3.656	0.000	3.656	
18	सिरलाय	4.915	0.000	4.915	
19	अगरवाडा	1.121	0.000	1.121	
20	बागफल	0.000	1.522	1.522	
21	कोगावां	1.138	0.000	1.138	
22	नरसिंगपुरा	3.206	4.866	8.073	
23	रतनपुरा	6.121	5.267	11.389	
24	कपास्थल	6.283	0.000	6.283	
25	बोधगांव	5.777	1.028	6.806	
26	बासवा	3.858	6.130	9.988	
27	भोकर नाला	1.024	1.595	2.619	
28	ढकलगांव	1.385	1.453	2.838	
29	लोंदी	5.170	3.599	8.769	
30	मर्दाना	3.227	0.000	3.227	
31	बडूत	14.077	7.482	21.559	
32	गवल	4.130	0.000	4.130	
33	बावनी	0.000	4.154	4.154	
34	जूनापानी	0.000	1.077	1.077	
35	रूपखेडा	1.219	0.000	1.219	
36	खनगांवखेडी	6.401	13.267	19.668	
37	सनावद	0.000	1.611	1.611	
38	खगवाडा	0.518	0.000	0.518	
39	भुलगांव	2.927	0.000	2.927	
40	मलगांव	0.000	1.717	1.717	
41	बांगरदा	0.227	2.919	3.146	
42	कोटलिया खेडी	0.000	0.526	0.526	
योग . .		151.947	126.032	277.981	

कार्यालय, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी, जिला शहडोल मध्यप्रदेश

क्रमांक/भू-अर्जन/2013,

शहडोल, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

संशोधन

क्र. 16-बी-121-2013-14-मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक 16-बी-121-2013-14 दिनांक 11 दिसम्बर 2013 जिसका प्रकाशन "मध्यप्रदेश राजपत्र" में दिनांक 13 दिसम्बर 2013 को हुआ है के प्रथम पैरा को निम्न संशोधन अनुसार पढ़ा जावे.

अधिसूचना दिनांक 11 दिसम्बर 2013 में प्रकाशित पैरा

संशोधित पैरा

अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम छाता तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम लालपुर तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जावे.

अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम छाता तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम लालपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जावे.

शेष प्रकाशन यथावत माना जावे.

संशोधन

क्र. 18-बी-121-2013-14-मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक 18-बी-121-2013-14 दिनांक 11 दिसम्बर 2013 जिसका प्रकाशन "मध्यप्रदेश राजपत्र" में दिनांक 13 दिसम्बर 2013 को हुआ है के प्रथम पैरा को निम्न संशोधन अनुसार पढ़ा जावे.

अधिसूचना दिनांक 11 दिसम्बर 2013 में प्रकाशित पैरा

संशोधित पैरा

अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जावे.

अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जावे.

शेष प्रकाशन यथावत माना जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. 8683-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	डूण्डा सिवनी	0.61	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर.	छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन का निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8685-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	डोली छतरपुर	0.16	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर.	छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन का निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8686-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	कछबाड़ा	1.65	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर.	छोटी रेल लाइन से बड़ी रेल लाइन का निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. -10-पत्र क्र. 582-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मझगवां	रजौला	0.010	कार्यपालन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतना (म. प्र.).	चित्रकूट मंदाकिनी नदी संरक्षण योजना अन्तर्गत संपबेल निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. 15696-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	बदनावर	बदनावर	0.030	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 1, धार.	बागेड़ी तालाब की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्र. 05-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	बाजनी	1.45	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्टीब्यूटरी संभाग क्र. 9, दतिया (म. प्र.).	खर्वाघाट मध्यम सिंचाई नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 06-अ 82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	लरायटा	4.14	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्टीव्यूटरी संभाग क्र. 9, दतिया (म. प्र.).	खराघाट मध्यम सिंचाई नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 07-अ 82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	डगरई	3.18	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्टीव्यूटरी संभाग क्र. 9, दतिया (म. प्र.).	खराघाट मध्यम सिंचाई नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 08-अ 82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	दीवानकी रूंद	3.12	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्टीव्यूटरी संभाग क्र. 9, दतिया (म. प्र.).	खराघाट मध्यम सिंचाई नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 09-अ 82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	चितुवां	4.13	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9, दतिया (म. प्र.).	खरीघाट मध्यम सिंचाई नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्र. 1891-भू-अर्जन-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शिवपुरी	करैरा	अम्बारी	225 527 242 166 103/1 463 352 353 354 कुल योग . .	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9, दतिया (म.प्र.).	बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना कासना नाला तालाब के डूब क्षेत्र हेतु.
			0.40 0.05 0.04 0.13 0.98 0.01 0.03 0.07 0.04 1.75		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1892-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं. अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शिवपुरी	करैरा	सलैया	829/मिन. 1 0.10 831 0.01 832 0.05 833 0.15 871 0.01 872/मिन. 1 0.05 872/मिन. 2 0.05 873 0.02 1217 0.06 1218 0.05 1219 0.03 1220 0.09 1232 0.08 1233 0.04 1234 0.04 1244 0.03 1245/1 0.06 1246/2 0.04 1247/2 0.09 1248 0.08 1250 0.08 1256 0.02 1257 0.10 1258/1 0.03 1294 0.02 1296 0.13 1297 0.19 कुल योग . . 1.70	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.).	महुअर मध्यम परियोजना की बायीं तट नहर की उपशाखा क्र. 8, एल. के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

पत्र क्र. 1485-भू-अर्जन-तेंदूखेड़ा-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	पौड़ी महाराज सींग	2.73	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह.	करारिया जलाशय योजना डूब बांध, स्पिल चैनल एवं नहर क्षेत्र हेतु शेष मुआवजा भू-अर्जन.
		चौपरा चौबीसा	0.27		
		योग . .	3.00		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1486-भू-अर्जन-तेंदूखेड़ा-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	बड़ेरा	3.95	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह.	बड़ेरा जलाशय योजना डूब बांध, स्पिल चैनल एवं नहर क्षेत्र हेतु शेष मुआवजा भू-अर्जन.
		भजिया	4.27		
		सूरजपुरा	0.05		
		सुनवराह	3.52		
		सुनकड़	0.70		
		योग . .	12.49		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1487-भू-अर्जन-तेंदूखेड़ा-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	तेंदूखेड़ा	अमवाही	9.93	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	अमवाही जलाशय बांध एवं
		बादीपुरा	0.08	संभाग दमोह (म.प्र.).	नहर हेतु.
		रामादेही	0.64		
		योग . .	10.65		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेंदूखेड़ा (दमोह) तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	बाई	1.948	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	घोघरा मध्यम परियोजना की
				संभाग, सीहोर.	बगबाड़ा वितरिका की बाई
					उपनहर.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	बोड़ी	0.327	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की बड़खेड़ी उपनहर.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	गोपालपुर	0.962	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की कुमनताल उपनहर.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	इटारसी	0.998	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की इटारसी उपनहर.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	गोपालपुर	1.628	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की इटारसी उपनहर.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	गोपालपुर	0.771	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की डोभा उपनहर-2.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	कुमनताल	0.652	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की डोभा उपनहर-1.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	सुकरवास	3.197	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की डोभा उपनहर.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	वासुदेव	2.577	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की गिलहरी उपनहर.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	इटवा कलां	1.409	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की इटावा कलां उपनहर.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	बरखेड़ी	3.485	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की बरखेड़ी उपनहर.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 1 जनवरी 2014

प्र. क्र. 1-अ-82-वर्ष 2013-14-भू-अर्जन-30.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	बैतूल	कोलगांव	11.776	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, संभाग क्रमांक-2, बैतूल.	कोलगांव जलाशय, स्पील चेनल एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-वर्ष 2013-14-भू-अर्जन-31.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	बैतूल	गोराखार	7.177	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, संभाग क्रमांक-2, बैतूल.	कोलगांव जलाशय एवं स्पील चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-वर्ष 2013-14-भू-अर्जन-32.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	बैतूल	मुचगोहान	17.509	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, संभाग क्रमांक-2, बैतूल.	कोलगांव जलाशय, स्पील चैनल एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

क्र. भू-अर्जन-20 (अ-82) 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	खरगहना प. ह.नं. 161	988 में से	0.72	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी.
				0.72	पूरक प्रस्ताव खरगहना जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छबि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. 8684-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं./ रा.नि.मं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	घंसौर	बिनेकी कला 24/कहानी	अशासकीय भूमि 3.77	मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड ग्राम बरेला तहसील घंसौर जिला सिवनी.	झाबुआ पावर लिमिटेड ग्राम बरेला में पावर प्लांट निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. 740-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र. 02-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	रूखड़िया	0.813	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) खरगोन.	एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 738-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र. 03-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	रोड़िया	2.668	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) खरगोन.	एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 739-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र. 04-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	उमरिया	2.787	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) खरगोन.	एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 737-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र. 06-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	खेड़ीबुजुर्ग	2.452	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) खरगोन.	एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 05-ए-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सांख्यिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील—सिलवानी

(ग) ग्राम—सनाईदार, नगपुरा, प्रतापगढ़, मरहेठी, फूलमार,
छीद देवरी, कालुआ, बिघर्रा, बीकलपुर, परासिया.

(घ) लगभग क्षेत्रफल —34.165 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)

ग्राम—सनाईदार

278, 287/1	1.910	0.21
278, 287/2	1.198	0.15
278, 287/4/2	2.153	0.3
280	2.354	0.468
281	0.906	0.03
278, 287/3	1.214	0.09
योग . .	9.735	1.248

ग्राम—नगपुरा

18	0.894	0.03
14	1.056	0.096
13/1	0.749	0.078
6	2.072	0.270
137, 225/137	0.158	0.03
45	1.263	0.042
177 मे से	2.614	0.078
178	2.671	0.27
15/2	0.333	0.03
155	0.531	0.12
13/2	0.518	0.078

(1)	(2)	(3)
159	3.380	0.3675
169	3.161	0.39
173	0.518	0.12
152	0.121	0.009
20	1.104	0.108
154	0.202	0.048
138	0.198	0.01875
129/2, 143/2	0.470	0.12
87/1	2.221	0.18
67/1, 1/2	2.023	0.108
67/1/2	2.023	0.114
82/2	0.210	0.06
79/1	1.189	0.102
230/21	0.405	0.108
49	5.787	0.3675
171	1.513	0.27
172 मे से	4.046	0.15
174	2.715	0.144
175	0.401	0.27
202/2	4.047	0.18
200/1	2.833	0.36
182/1 मे से	9.154	0.3
156	0.198	0.048
153/1	0.048	0.009
153/2	0.049	0.009
183	2.201	0.15
136	0.101	0.03
116	2.426	0.27
118 मे से	1.619	0.06
110, 111	5.695	0.21
85	6.548	0.495
82/1	1.412	0.12
80	4.112	0.12
79/2	1.205	0.12
83 मे से	2.741	0.09
योग . .	91.282	6.477

ग्राम—प्रतापगढ़

14	1.291	0.144
16	1.971	0.06
212	0.849	0.108
211	0.632	0.06
54	0.713	0.09
65	1.983	0.252

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
64	7.709	0.09	103	0.045	0.009
23	1.967	0.09	105/2	0.866	0.09
43	0.356	0.048	100	3.219	0.24
24	0.910	0.102	99	1.740	0.018
25	1.424	0.132	70/2	1.740	0.009
86	0.283	0.012	64	1.681	0.0117
82 मे से	1.769	0.18	56	2.762	0.072
210	0.330	0.03	योग . .	34.086	1.929
183	1.777	0.21	ग्राम—फूलमार		
182 मे से	5.335	0.168	14/2, 13/1,	0.405	0.12
181	8.220	0.612	13/2, 14/5		
180/2	2.379	0.132	2/3, 11/2, 12/3, 14/6	1.647	0.18
180/1	2.380	0.21	9/1, 12/6, 15/3,	1.214	0.084
174, 175	1.473	0.108	16/4, 2/1/4		
173	0.150	0.048	111/2/3	1.889	0.075
169	0.061	0.009	76/2/1	2.789	0.09
165, 166	0.121	0.03	76/2/2	2.023	0.09
83	0.902	0.102	81	1.339	0.045
176	2.055	0.084	80	0.190	0.015
177, 178, 179 मे से	2.630	0.048	107	2.092	0.12
41	0.458	0.15	83	0.833	0.075
42	1.942	0.18	84	2.804	0.15
51	1.659	0.108	76/1	0.534	0.06
66	0.910	0.12	70/2	3.100	0.12
84	0.765	0.03	70/1	2.121	0.075
56	1.212	0.015	170	2.420	0.18
11	0.769	0.09	176	2.383	0.12
13	3.059	0.162	177	0.862	0.12
281/14	1.149	0.12	208/176	0.785	0.06
योग . .	61.593	4.134	175	2.283	0.3
ग्राम—मरहेढी			9/1, 12/6, 5/3,	2.023	0.084
101	1.392	0.012	16/4, 2/1/5		
77	1.311	0.228	111/2/2	1.888	0.075
80	2.069	0.048	198	0.474	0.072
79	2.274	0.204	200	0.566	0.09
70/1	1.738	0.009	2/3, 3/2, 4/2,	0.740	0.24
69	1.967	0.12	13/3, 14/8		
67	0.809	0.16875	16/4, 2/1/5,	1.619	0.084
65	1.064	0.12	9/1, 12/6		
66	1.777	0.012	9/1, 12/6, 15/3,	1.214	0.084
57	1.303	0.018	16/4, 2/1/8		
58	2.246	0.3	9/1, 12/6, 15/3,	1.214	0.084
19	4.083	0.24	16/4, 2/1/9		

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/10	1.214	0.084	ग्राम—छींद देवरी		
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/37	2.023	0.084	92 मे से	5.285	0.186
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/35	1.000	0.084	91/1	6.783	0.285
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/38	1.214	0.084	91/2	0.405	0.108
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/39	1.144	0.084	87	2.719	0.33
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/40	1.000	0.084	99	2.055	0.192
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/41	1.214	0.084	105	0.729	0.09
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/42	1.000	0.084	187/104 मे से	7.042	0.4125
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/43	1.000	0.084	125	5.525	0.192
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/44	1.000	0.084	124	0.938	0.045
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/45	1.214	0.084	126 मे से	12.736	0.12
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/46	1.000	0.084	योग . .	44.217	1.961
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/47	1.214	0.084	ग्राम—कोलुआ		
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/48	1.000	0.084	63/1/1/2	6.525	0.27
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/49	1.000	0.084	63/2	4.452	0.258
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/50	1.000	0.084	40	4.622	0.303
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/51	1.000	0.084	34	2.566	0.315
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/52	1.000	0.084	33	1.196	0.27
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/53	1.000	0.084	17/1	2.582	0.138
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/54	1.000	0.084	17/2	2.582	0.15
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/55	1.214	0.084	16	0.417	0.072
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/56	1.000	0.084	योग . .	24.942	1.776
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/57	1.000	0.084	ग्राम—पठा कला		
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/58	1.214	0.084	154/1/2	0.089	0.048
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/59	1.000	0.084	156/1/1/2	1.360	0.075
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/60	1.000	0.084	154/1/1	15.300	0.12
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/61	1.000	0.084	154/2	1.907	0.21
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/62	1.000	0.084	154/3	0.289	0.048
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/63	1.000	0.084	154/1/1	1.530	0.015
9/1, 12/6, 15/3, 16/4, 2/1/64	1.000	0.084	150	2.477	0.15
181	8.083	0.45	49	0.316	0.048
188	2.501	0.24	45	1.096	0.015
187	2.809	0.018	44	1.720	0.39
185	2.651	0.33	43/1 मे से	2.740	0.21
196	11.281	0.48	43/1	2.740	0.015
179	1.522	0.045	155	3.253	0.15
111/2/1	1.889	0.09	152 मे से	3.824	0.39
82	2.983	0.045	151	0.429	0.06
79	1.149	0.045	32 मे से	9.862	0.24
69	3.631	0.15	48	1.137	0.12
169 मे से	8.031	0.72	37/1/2	1.720	0.27
योग . .	105.218	6.765	37/1/1	4.533	0.048
			168 मे से	1.770	0.18
			118/2	1.226	0.02

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
118/3	1.422	0.05	100/3/1/1	3.812	0.138
137 मे से	2.448	0.19	100/3/4	2.411	0.015
140 में से	8.365	0.08	99	5.929	0.09
141	8.984	0.12	130/1	5.665	0.114
133/1/1	1.659	0.02	95, 96/2	4.252	0.066
167 मे से	1.933	0.036	96/1	2.918	0.105
47, 46	7.149	0.12	92	2.586	0.009
43/2	1.696	0.084	49	1.631	0.165
142	1.137	0.06	50, 51	1.315	0.252
50	1.509	0.06	52	0.628	0.084
26/1	2.508	0.124	46/1/2/1/2	0.559	0.072
53/2	2.023	0.056	46/1/2/1/1	1.926	0.06
53/1	3.367	0.09	46/1/1	2.428	0.09
27 मे से	10.445	0.174	41	1.502	0.15
25/1	1.295	0.11	36	0.761	0.072
योग . .	115.258	4.196	योग . .	58.367	1.989

ग्राम—बिघर्रा

105	2.027	0.21
9/1, 10	2.464	0.168
94/2/1/1	0.809	0.06
96/2	0.696	0.21
106/3	2.023	0.222
106/4/1	0.607	0.06
127/1/1/107	3.274	0.06
112/2	1.619	0.072
112/1	3.569	0.108
111, 124, 111, 125, 113/2	0.109	0.21
9/2, 10	2.460	0.096
106/2	0.405	0.018
111/6/1, 124/111/6/1, 125/113/6/1	1.619	0.09
योग . .	21.681	1.584

ग्राम—बीकलपुर

105/2	3.120	0.015
114/2, 115, 116/2	2.653	0.06
114/3	2.653	0.075
113/1/1	0.688	0.063
106	2.371	0.036
104	2.525	0.105
93	1.150	0.042
102	4.884	0.111

ग्राम—परासिया

65	1.666	0.08
66	0.409	0.06
54	1.602	0.14
151	0.312	0.08
152	0.951	0.08
153	0.360	0.04
144	0.332	0.04
140	0.219	0.032
139	0.065	0.008
168	1.509	0.04
166	1.866	0.12
394/140	1.214	0.09
143	0.553	0.08
264	0.150	0.008
355	0.036	0.006
281, 282 मे से	2.444	0.16
250, 251 मे से	5.605	0.28
357	3.516	0.11
165	0.239	0.02
359	4.201	0.09
354, 352	1.469	0.112
105	2.467	0.23
103	6.358	0.2
योग . .	35.076	2.106
महायोग . .	601.455	34.165

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नगपुरा-नगझिरी जलाशय की नहर निर्माण.
- (3) भूमि का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी, सिलवानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

(1)	(2)	(3)
172/3	3.22	0.061
174/1/1/1/1 एवं 174/1/1/1/2	1.37 एवं 1.36	0.121
		कुल योग . . 2.754

रायसेन, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 05-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील—उदयपुरा

(ग) ग्राम—केवलारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.754 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (एकड़ में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
63/1/1	1.30	0.040
63/2/1	1.70	
64/1	7.50	0.162
66	1.89	0.125
137/1	6.00	0.243
138	11.98	0.206
139/2	3.31	0.081
139/3	3.31	0.081
139/1	9.32	0.202
140/2	4.11	0.105
148/1	5.44	0.121
140/3/2 एवं 140/3/1	4.00 एवं 1.00	0.178
148/2	5.00	0.121
154/1	2.97	0.150
170/1	9.46	0.259
170/2	9.46	0.186
170/3/1 एवं 170/3/2	5.03 एवं 4.46	0.170
172/1/2 एवं 172/1/2	1.08 एवं 2.14	0.081
172/2/1 एवं 172/2/2	0.07 एवं 2.15	0.061

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—जलाशय नहर निर्माण हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

क्र. 5720-भू.-अर्जन-2013-प्र.क्र. 43-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—रतलाम

(ख) तहसील—रतलाम

(ग) ग्राम—कनेरी एवं कलमोड़ा

(घ) क्षेत्रफल—16.900 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में.)
(1)	(2)

ग्राम-कनेरी की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

383/3	0.400
434/2	0.070
434/6	1.440
434/7	1.540

(1)	(2)
434/8	6.400
434/22	0.030
434/23	0.050
434/33	0.060
434/34	0.300
434/39	0.270
434/40	0.180
434/45	0.360
434/46	0.300
434/47	0.060
434/48	4.300
कुल रकबा . .	15.760

ग्राम कलमोड़ा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

25	0.180
257/3	0.060
257/5/1	0.100
267/3	0.700
267/4/1	0.100
कुल रकबा . .	1.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—कनेरी जलाशय योजनान्तर्गत डूब से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—पोहरी
(ग) नगर/ग्राम—रसेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.160 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
135	0.120
136	0.250
140	0.290
141	0.120
142	0.120
171	0.010
172	0.140
173	0.060
174/1	0.010
176/1	0.010
177	0.240
218	0.010
235	0.030
237	0.020
238	0.020
245	0.130
246	0.090
788	0.190
789	0.080
790	0.010
794	0.080
795	0.050
796	0.080
योग . .	2.160

कार्यालय कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-2012-235.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—पच्चीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

क्र. 11068-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (सेमलाबे तालाब के डूब, पाल, वेस्टवीयर एवं नहर के निर्माण में प्रभावित भूमि) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—खिलचीपुर

(ग) ग्राम—पीथापुरा, सेमलाबें

(घ) क्षेत्रफल—15.569 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)

ग्राम-पीथापुरा

163/2/1	0.509
163/2/2	0.509
163/2/3	0.429
163/2/4	0.479
163/2/5	0.509
163/2/6	0.509
163/2/7	0.509
163/2/8	0.509
163/2/9	0.509
163/2/10	0.509
163/2/11	0.509
163/2/12	0.509
163/2/13	0.509
163/2/14	0.509
163/2/15	0.209
163/2/16	0.310
163/2/18	0.230
163/2/20	0.160
163/2/22	0.101

(1)	(2)
163/1/1	0.064
163/9/1	0.290
163/9/2	0.518
163/1	1.218
163/1/3	1.400
159	0.608
150	1.348
152	0.518
141/2	0.100
योग . .	14.090

ग्राम-सेमलाबें

14/1	0.060
14/2	0.060
14/3	0.060
14/4	0.060
14/5	0.060
14/6	0.060
14/7	0.060
14/8	0.060
14/9	0.060
14/10	0.060
19/1	0.040
19/2	0.040
19/3	0.040
19/4	0.040
19/5	0.040
17	0.036
योग . .	0.836

ग्राम-बावड़ीबेह

157	0.113
158	0.352
197/164	0.166
198/164	0.012
योग . .	0.643
महायोग . .	15.569

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.—सेमलाबें तालाब के डूब, पाल, वेस्टवीयर एवं नहर के लिये अर्जित की जाने वाली प्रभावित भूमि हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11070-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
- (ख) तहसील—खिलचीपुर
- (ग) ग्राम—रूपाहेड़ा, आम्बावेह
- (घ) क्षेत्रफल—2.915 हेक्टेयर

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)

ग्राम-रूपाहेड़ा

106/4/1	0.020
108/1	0.048
110/1/1	0.165
98/1	0.094
223/1/1	0.480
240	0.030
83	0.405
192	0.024
106/2	0.033
106/3/1	0.060
110/2/1	0.055
247/1	0.080
343/223	0.250
210/1	0.305
190	0.024
104/3/1	0.100
106/5/1	0.045
99	0.012
223/2	0.020
350/223/1	0.165
211/1	0.160
221	0.089

योग . . 2.664

(1)

(2)

ग्राम-आम्बावेह

85/6	0.251
योग . .	0.251
महायोग . .	2.915

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.—रूपाहेड़ा तालाब की पाल डूब के निर्माण में प्रभावित भूमि हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11074-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
- (ख) तहसील—खिलचीपुर
- (ग) ग्राम—कछोटिया
- (घ) क्षेत्रफल—7.225 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टेर में)
(1)	(2)
668	0.620
795	0.239
799/1	0.137
799/3/1	0.092
799/4	0.045
799/7	0.091
802/3	0.044
802/5	0.044
805	0.077
808	0.053
811	0.053

(1)	(2)	(1)	(2)
813/1	0.031	922/2	0.075
919/4/1	0.100	923/2	0.107
921/1	0.158	924/1/2	0.019
922/1	0.075	930/2	0.415
924/1/1	0.019	925/1	0.050
930/1/2	0.150	814/1	0.065
924/3	0.037	815/2	0.033
925/2	0.050	819	0.065
815/1	0.032	817	0.109
418/2	0.176	820	0.036
801	0.101	821	0.036
796	0.214	822	0.065
799/2/1	0.068	818/1	0.176
799/3/2	0.091	योग :	<u>7.225</u>
795/5	0.046		
802/1	0.045	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—कछोटिया	
802/4/1	0.045	तालाब के डूब, पाल एवं वेस्टवीयर में अर्जित की जाने	
803	0.684	वाली प्रभावित भूमि हेतु.	
806	0.052	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय	
809	0.053	अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर के कार्यालय में किया	
812/1	0.051	जा सकता है.	
919/2	0.150		
919/4/2	0.100		
921/2	0.158	क्र. 11076-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात	
923/1	0.107	का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में	
930/1	0.230	वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक	
924/2	0.038	प्रयोजन (गोकुलपुरा तालाब के वेस्टवीयर में प्रभावित भूमि) के लिये	
924/4	0.037	आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन्	
813/2	0.030	1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता	
814/2	0.063	है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
816	0.065	अनुसूची	
800	0.125	(1) भूमि का वर्णन—	
797	0.239	(क) जिला—राजगढ़	
799/2/2	0.069	(ख) तहसील—राजगढ़	
799/3/3	0.091	(ग) ग्राम—बांसखेड़ा	
799/6	0.091	(घ) क्षेत्रफल—2.932 हेक्टेयर.	
802/2	0.044	सर्वे नं.	रकबा
802/4/2	0.045	(1)	(हेक्टर में)
804	0.065	(2)	
807/1	0.032	वेस्टवीयर में प्रभावित भूमि	
810	0.065		
812/2	0.010		
919/3	0.250	421/27	0.500
919/4/3	0.100	257/1	0.253

(1)	(2)
271	0.329
421/8	0.300
256	0.500
269/2	0.300
421/34	0.200
257/2	0.300
270	0.250
योग : <u>2.932</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—गोकुलपुरा तालाब के वेस्टवीयर में प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11078-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—राजगढ़
(ग) ग्राम—बड़लावदा
(घ) क्षेत्रफल—6.113 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

बांध में शेष प्रभावित भूमि

414/1	0.039
417/5	0.050
408/1	0.265
476/2/2	0.433
414/2	0.034
408/3	0.380
414/3	0.016
402	0.250
404	0.531
405	0.164

(1)	(2)
406/1	0.016
456/2	0.150
406/2	0.136
407/1	0.044
476/1/2	0.250
476/1/3	0.405
476/1/4	0.500
476/1/5	0.101
476/1/6	0.150
456/3/2	0.500
453/2/2	0.020
416/2	0.038
408/2	0.380
401/2	0.380
407/2	0.180
407/3	0.181
453/1/2	0.020
476/1/1	0.500
योग : <u>6.113</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—बड़लावदा तालाब में शेष प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11080-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—खिलचीपुर
(ग) ग्राम—रूपाहेड़ा
(घ) क्षेत्रफल—2.025 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
106/2	0.048

(1)	(2)	(1)	(2)
126	0.125	132/5	0.060
128/2	0.036	135/1	0.130
165/7/2	0.220	136/2	0.030
164/2	0.130	145/3	0.030
107/1	0.084	149/1	0.056
128/1	0.012	59/5	0.040
165/4/2	0.240	165/4/1/1	0.448
153	0.101	129	0.030
365/165	0.060	131/1	0.012
107/2	0.084	132/6	0.060
127/1	0.120	132/4	0.060
165/5	0.615	146/1/2	0.080
154	0.150	135/2	0.080
योग :	<u>2.025</u>	135/3/2	0.015
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—रूपाहेड़ा तालाब की नहर के निर्माण में प्रभावित भूमि हेतु.		149/2	0.032
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.		165/14/1	0.401
		165/4/1/2	0.344
		130	0.120
		131/3	0.165
		132/7	0.060
		146/2	0.080
		135/3/1	0.015
		145/1, 145/2	0.030
		योग :	<u>3.635</u>
क्र. 11082-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—रूपाहेड़ा तालाब की वेस्ट वियर के निर्माण में प्रभावित भूमि हेतु.	

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—खिलचीपुर
(ग) ग्राम—रूपाहेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.635 हेक्टेयर

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में.)
(1)	(2)
70	0.160
165/14/2	0.144
165/4/2	0.463
165/5	0.400
131/2	0.090

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—रूपाहेड़ा तालाब की वेस्ट वियर के निर्माण में प्रभावित भूमि हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11084-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—खिलचीपुर

(ग) ग्राम—भवानीपुरा पुस्त बेहडीबेह		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.001 हेक्टेयर.		278/2	0.076
सर्वे नं.	रकबा	273/1/2	0.531
	(हेक्टर में)	275/2	0.298
(1)	(2)	280/1/4	0.070
24/46, 24/47, 24/48,	3.124	261/2/2	0.080
24/49, 24/50, 24/51		280/1/3	0.092
24/39	0.024	303/2	0.265
22	0.200	302/2	0.093
16	0.065	280/2	0.092
24/38	0.368	302/1	0.093
17	0.120	287	0.024
14	0.100	281	0.542
योग : 4.001		268	0.291
		272	0.101
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—बेड़ीबेह		128/2	0.027
तालाब की पाल, डूब एवं वेस्टवीयर के निर्माण में		273/1/1	0.531
प्रभावित भूमि हेतु.		277/2	0.145
		261/1/1	0.158
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय		279/1/2	0.168
अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर के कार्यालय में किया		279/2	0.336
जा सकता है.		306	0.227
		303/1	0.265
क्र. 11086-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात		302/3	0.093
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में		283/3	0.061
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक		283/4	0.229
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		119/1	0.033
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह		267	0.239
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये		278/1	0.228
आवश्यकता है:—		273/2	0.455
अनुसूची		270	0.380
(1) भूमि का वर्णन—		128/1	0.026
(क) जिला—राजगढ़		275/1	0.297
(ख) तहसील—खिलचीपुर		279/1/1	0.168
(ग) ग्राम—डालूपुरा		280/1/2	0.069
(घ) लगभग क्षेत्रफल—25.010 हेक्टेयर		284	1.441
सर्वे नं.	रकबा	283/1	0.062
	(हेक्टर में)	304	0.251
(1)	(2)	283/2	0.061
266/1	0.190	261/4	0.025
271	0.470	261/3	0.765
269	0.202	286/1	0.510
277/1	0.146	298/1	0.241
		301/1	0.018
		286/2	0.510

(1)	(2)	(1)	(2)
298/2	0.240	330/1	0.051
299/2	0.076	121/1	0.009
298/3	0.240	117/1	0.040
209/2	0.086	121/4	0.009
311/2	0.114	123/1	0.017
297/2	0.020	301/2	0.018
120/3	0.023	125/3	0.013
308/3	0.045	126/1	0.018
209/3	0.170	127/2	0.015
300/3	0.051	129	0.053
310	0.049	130/2	0.028
123/3	0.018	276/3/3	0.033
124	0.036	322/1	0.079
329	0.024	299/1	0.075
332	0.251	288/3	0.125
121/2	0.009	119/2	0.034
117/2	0.040	299/3	0.076
301/1	0.018	301/3	0.017
123/2	0.018	297/1	0.090
125/2	0.013	309/1	0.085
125/5	0.013	308/1	0.022
126/3	0.009	311/1	0.150
127/1/2	0.011	289/1	0.145
276/3/5	0.032	300/2	0.050
130/3	0.028	305	0.036
288/1	0.190	119/3	0.034
123/1	0.017	122	0.036
388/3	0.412	118/3	0.028
322/2	0.080	331	0.251
286/3	0.510	117/3	0.040
301/3	0.017	121/3	0.009
120/2	0.022	117/4	0.040
308/2	0.022	299/1	0.075
311/3	0.115	125/1	0.013
297/3	0.261	125/4	0.013
120/1	0.044	126/2	0.009
300/1	0.050	127/1/1	0.020
300/4	0.051	130/1	0.028
322/3	0.080	276/3/1	0.033
323	0.178	130/4	0.029
325	0.012	276/3/2	0.033

(1)	(2)
132	0.012
418/49	1.010
274/1	0.088
274/3	0.088
276/1/1	0.028
276/3/4	0.033
265/1	0.020
265/3	0.190
118/4	0.028
53	6.655
131	0.024
118/2	0.028
264	0.368
274/2	0.088
263/1	0.274
276/1/2	0.027
280/1/1	0.139
265/2	0.025
449	0.395
418/51	0.633
53	7.573
118/1	0.029
418/50	3.770
274/4	0.088
263/2	0.025
263/3	0.025
276/1/3	0.027
161/1	0.076
265/4	0.070
440	0.053
52	10.782

योग : 25.010

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—डालूपुरा तालाब के डूब एवं पाल के लिये अर्जित की जानी वाली प्रभावित भूमि हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11088-भू.-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—खिलचीपुर
(ग) ग्राम—दुर्गपुरा, पुरा दुर्गपुरा, पुरा सेंदरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.535 हेक्टेयर

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

ग्राम-दुर्गपुरा

92/2	0.008
71	0.012
89/1	0.024
99	0.024
124	0.012
101	0.012
120/1	0.010
129/2	0.030
137	0.045
87	0.012
89/2	0.012
121/2	0.030
125	0.024
107	0.036
121/1	0.015
135	0.035
92/1	0.008
88	0.024
91	0.018
98	0.020
129/1	0.030
120	0.075
123	0.068

योग : 0.584

(1) (2)
ग्राम-पुरा सेंदरा

35	0.040
36	0.024
37/1	0.140
38	0.012
37/2	0.070
45	0.024
योग : 0.310	

ग्राम-पुरा दुर्गपुरा

14/1	0.210
60/2	0.005
60/1/1	0.006
61	0.042
34	0.060
53	0.024
60/1/2	0.005
63/1	0.012
59	0.023
58	0.045
60/1/3	0.005
63/3	0.012
63/4	0.012
55/1	0.025
64	0.024
55/2	0.090
65	0.036
60/1/4	0.005
योग : 0.641	
कुल योग : 1.535	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—दुर्गपुरा तालाब की नहर के लिये अर्जित की जाने वाली प्रभावित भूमि हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैयाराजा टी. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

क्र. 11308-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—सौंसर
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-कोदाडोंगरी, बी.-1.,
प.ह.नं. 60/23, ब.नं. 58, रा.नि.मंडल-सौंसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 07.720 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1	0.299
	बेर-3, पलसा-4
5	0.567
	बेर-3, पलसा-4
3	0.101
	बबूल-4, बेर-7, पलसा-9
9	2.901
	महुआ-3, पाखड़-1, पलसा-4, बेर 7
16	0.817
	बेर-7, पलसा-2, महुआ-3
23/1	0.999
	सागौन-40
23/2	1.518
24	0.518
	सागौन-12
योग . . 07.720	

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां-विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष-113

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi-Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	6/1 6/2 8/1	कोठा-1, कुआ पक्का-1, वि.पं.-1, नीम-1, सागौन-5 0.506 0.765 सागौन-2, पलसा-1 4.000
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.	8/2 10/1 10/2	कुआ पक्का-1, वि.पं.-1, सागौन-15, संतरा-22 1.298 मकान कच्चा-1, हैंडपंप, सागौन-32 1.500 1.600
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रबंधक, संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9, इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.	12 14	महुआ-2, सागौन-98 1.822 मकान कच्चा-1, कुआ पक्का-1, पि.पं.-1, आम-1, बेर-1, पलसा-2 0.340
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय-गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.	15 19/1 19/2	संतरा-80 0.991 महुआ-3 0.890 1.000
क्र. 11309-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	19/3 19/5 38 44	सागौन-30 1.500 1.500 0.393 सागौन-5 0.396 सागौन-3
अनुसूची		योग . . 19.254

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—सौंसर
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-कोदाडोंगरी, बी.2,
प.ह.नं. 60/23 ब.नं. 60, रा.नि.मंडल-सौंसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 19.254 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां—मकान-4, कुआ-3, हैंडपंप-1, विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष-304.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi-Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9, इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय-गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 11310-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—सौंसर
- (ग) नगर/ग्राम—कोदाडोंगरी दवामी,
प.ह.नं. 60/23 ब.नं. 59, रा.नि.मंडल-सौंसर.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-19.892 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	1.780 महुआ-2
2/2	1.927-महुआ-3
3	0.210
22	1.214

महुआ-2, नीम-4, पलसा-6

(1)	(2)
5	0.627
	महुआ-6, आंजन-1
8/2	2.254
25	0.534
41	6.079
	महुआ-6, सागौन-3
	नीम-2, रोहन-1
23	0.516
26	0.405
	कुआ कच्चा-1, वि. पं.-1
27	0.862
	कुआ पक्का-1
28	1.011
30	1.736
37/1	0.575
51	0.162
	योग . . 19.892

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां-कुआ-2, विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष-36.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi-Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9, इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय-गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 11311-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—सौंसर
(ग) नगर/ग्राम—कोदाडोंगरी मालगुजारी, प.ह.नं. 60/23 ब.नं. 57, रा.नि.मंडल-सौंसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 66.854 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
30/3	0.121	
31/3	1.133	
38/1	0.364	
	मकान कच्चा-1, नीम-1, कुआ-1, वि.पं.	
39/1	0.752	
39/4	0.696	
54	0.057	
40/3	0.537	
40/4	0.536	महुआ-1
42	1.522	
51	0.636	
44	1.154	
	कुआ कच्चा-1, वि.पं.1	
50	0.105	
45/1	0.915	
56/3	1.198	
58/1	1.011	
60	0.024	
62	1.619	
67/2	0.750	
70/1	0.490	
70/3	1.843	नीम-1
71	1.667	
73/1	1.959	
73/2	1.964	
	कुआ पक्का-1, वि.पं. आम-2	

(1)	(2)
74/1	1.070
74/2	1.071
76/3	0.749
	कुआ पक्का-1
108/2	0.748
88	0.105
90/1	0.097
90/2	0.405
92/3	0.364
92/4	0.364
105/1	1.619
	कुआ पक्का-1 वि.पं.
105/2	0.525
	कुआ पक्का-1, वि.पं.-1
122/1	1.317
	कुआ पक्का-1, वि.पं.-1, संतरा-400
105/3	1.214
	कुआ पक्का-1, वि.पं.-1, संतरा-150
105/4	1.214
	मकान कच्चा-1
105/7	1.545
106/3	0.329
109	1.234
116/1	0.915
	कुआ पक्का-1
116/2	1.000
117	2.473
118	1.947
119/1	1.214
120/1	0.742
120/3	0.741
122/2	0.202
122/3	0.323
123/1	2.877
123/2	1.518
124	0.809
125	1.619
128/1	1.795
	कुआ कच्चा-1
130	8.290
	महुआ-4, नीम-3
131	1.598

(1)	(2)	(ग)	नगर/ग्राम—ग्राम-दुधालाखुर्द, प.ह.नं. 61/24 ब.नं. 189, रा.नि.मंडल-सौंसर.
132	1.971	(घ)	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 96.900 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
133	1.797		
	कुआ-1, वि.पं.		
	योग . . 66.854		
	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां—मकान-2, कुआ-11 विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष-562	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi-Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	(1)	(2)
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	2/2	6.175 महुआ-5, अचार-3, पाखंड-1.
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.	4/1	0.439 महुआ-2
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9, इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.	10/1	1.223 आम-2
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय-गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.	4/2	0.439 महुआ-2
		10/2	1.223 महुआ-2
		4/3	0.439 महुआ-2
		10/3	1.223 महुआ-1
		4/4	0.440 महुआ-2
		10/4	1.224
		6	1.169 आम-1
		13/1	1.081 बेर-6
		19/1	2.575 महुआ-3
		48/1	0.219 महुआ-2
		13/2	1.080 बेर-8, आम-4
		48/2	0.218 महुआ-2
		17/1	0.809
		17/2	1.214 मकान कच्चा-1, कुआ-1, वि.पं.1, संतरा-500.
		17/3	1.214
		17/4	1.215
		18/2	1.821
		19/2	2.023 मकान कच्चा-1
		39	2.008 जामुन-1
		63	3.206 महुआ-3
		65	0.073
		51	0.777 कुआ पक्का-1
		100	0.518 कुआ पक्का-1, महुआ-1.
		52	1.019 आम-1
		53/1	0.506 कुआ कच्चा-1, महुआ-1.
(1) भूमि का वर्णन—			
(क)	जिला—छिन्दवाड़ा	53/2	0.469 आम-1
(ख)	तहसील—सौंसर	59/2	1.271 महुआ-4

क्र. 11312-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1)	(2)	(1)	(2)
99/2	0.405 महुआ-1	101/5	0.405
57/1	3.000 महुआ-2, बेर-8, पीपल-1.	103/1	0.934 महुआ-4
58/1	1.000 महुआ-2	103/2	0.583 महुआ-3
58/2	1.237 महुआ-3	103/4	0.583 महुआ-2
59/3	1.052 महुआ-2	103/5	0.809 मकान कच्चा-1, कुआ पक्का-1, वि.पं.
59/1	0.607 महुआ-1		महुआ-3.
60	1.769 महुआ-4	105/1	1.619 मकान कच्चा-1, कुआ पक्का-1.
66	1.053 महुआ-1		
61/1	0.838 महुआ-3	105/3	1.315
61/2	0.421	107/1	0.688
61/3	0.421	107/2	1.445 महुआ-1
62	1.546 सागौन-77 महुआ-1 अचार-12.	108	2.428 महुआ-6
84/1	0.263	111/1	0.809
96	0.186	111/2	1.012
84/2	0.911 कुआ कच्चा-1, वि.पं.-1.	111/3	2.972 मकान कच्चा-1, कुआ पक्का-1, महुआ-1.
84/3	0.910 कुआ पक्का-1, महुआ-2.	114/1	1.348 कुआ पक्का-1, आम-1.
92	0.620 महुआ-2	114/2	1.619 कुआ पक्का-1, आम-1.
94	2.225 महुआ-1	116/1	6.710 कुआ कच्चा-1, महुआ-3, बेर-30.
97/1	0.587		
99/3	1.485 कुआ कच्चा-1, महुआ-5.	116/2	1.821
97/2	0.214		योग . . 96.900
99/4	1.000 महुआ-2		हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली
97/3	0.433		संपत्तियां— मकान-7, कुआ-17, विभिन्न प्रजातियों
99/5	1.000 महुआ-3		के वृक्ष-753.
97/4	0.218	(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक
97/5	0.405		प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता
97/6	0.186 महुआ-3		है.—विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi-Product Special
99/1	1.214 कुआ पक्का-1, महुआ-1, आम-1.		Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के
99/6	0.607		अर्जन के संबंध में.
101/1	1.695 मकान कच्चा-1, कुआ पक्का-1, वि.पं.	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का
101/2	1.814		नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा
101/3	1.434		छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा
101/4	1.734 मकान कच्चा-1, कुआ पक्का-2, वि.पं.		सकता है.
		(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का
			नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं
			अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील सौंसर, जिला
			छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा
			सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9, इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंध संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गांवडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 11313-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—सौंसर
- (ग) नगर/ग्राम— सातनूर, प.ह.नं. 60/23
ब.नं. 376, रा.नि.मंडल-सौंसर.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—
66.629 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित
खसरा नम्बर

(1)

58/1

73/3

78/6

78/7

83

85

118/1

118/2

124

126/2

126/3

127

128/2

135/1

135/2

प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)

(2)

0.749

1.720

0.405

0.405

1.153

1.651

1.690

0.811

0.474

0.809 महुआ-1

0.405

1.214

0.583

2.047

0.102

(1)

141/1

141/2

144

271

294/1

270

318/2

273/3

286/3

292/2

294/2

294/3

306/1

325/2

330/1

305/4

306/2

308/1

309/3

314/3

315/3

315/4

(2)

1.998

2.209

1.007

0.401

0.487

0.129

1.296

0.466

0.022

0.740 मकान कच्चा-1,
कुआ पक्का-1.

0.930

1.955

0.676 आम-1

0.405

0.740 कुआ पक्का-1

0.267

1.214 कुआ पक्का-1,
वि.पं.

0.146 कुआ कच्चा-1

0.582

1.208 मकान-1,
कुआ पक्का-1
वि.पं.

0.244

0.709 कुआ पक्का-1
वि.पं.,
संतरा-50,
नींबू-50.

2.007 महुआ-3,
आम-5.

1.760

1.216 कुआ पक्का-1
वि.पं., आम-1,
जामुन-1.

0.158

0.160 कुआ पक्का-1
वि.पं.

3.561

7.446 मकान-1,
नींबू-100,

कुआ पक्का-1
वि.पं.

1.374

(1)	(2)
323/2	1.435
323/3	3.055 कुआ पक्का-1, वि.पं., आम-3
333	4.431 आम-1
324/1	1.123
324/4	0.809
324/5	0.101
325/9	0.890
325/5	0.809
325/6	0.405
330/4	0.740
325/7	0.405
330/5	0.741
325/8	0.404 कवट-1
330/6	0.741
331	0.809
योग . . . 66.629	

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां— मकान-3, कुआ-9, विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष-217.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi-Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9, इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंध संचालक मेसर्स

छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 11314-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—सौंसर
(ग) नगर/ग्राम—सावंगा, प.ह.नं. 61/24
ब.नं. 381, रा.नि.मंडल-सौंसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—
55.797 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
93	0.502 महुआ-1, बहेडा-1
402/2	0.809
404	0.506
406/2	0.406
408	2.023 नीम-1, बबूल-4
409	0.854 महुआ-1, आम-2
410	1.368 कुआ पक्का-1
411	2.902 कुआ पक्का-1, वि.पं. महुआ-1, आम-2
412	1.619
414	1.064 आम-2, पलास-1
415	1.214 पाखड-1
419	1.214 नीम-1

(1)	(2)	(1)	(2)
422	1.457	482/1	3.400 महुआ-6
430/1	0.506 कुआ पक्का-1, वि.पं. पाखड-1	483/1	1.943 महुआ-1
		योग . .	<u>55.797</u>
430/2	1.517 पाखड-1	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां—कुआ-7, विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष-65.	
431/1	0.105	(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi-Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	
431/2	1.417	(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	
416/2	0.724	(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	
417	0.012	(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9, इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	
418/2	0.129	(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंध संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय-गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	
421/1	0.931 नीम-2, महुआ-3		
421/2	0.870		
424	0.162 महुआ-1		
425	0.138		
429	0.647 कुआ पक्का-1, महुआ-1, आम-1, नीम-1, जाम-1		
457	1.218		
460	2.942 महुआ-1		
461	0.445		
462	0.089		
463	0.567 आम-1, महुआ-1		
458	0.105		
468/1	1.619 महुआ-3		
470	2.024 कुआ पक्का-1 महुआ-1		
471	0.809 महुआ-1		
472/1	0.810 कुआ पक्का-1, महुआ-18		
472/3	0.809		
492/1	1.640		
505	0.146		
506/2	0.922		
507/1	2.225 कुआ पक्का-1 वि.पं.		
510/1	6.880 महुआ-1		
511	2.428		
513/2	1.680 महुआ-1		

क्र. 11315-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—सौंसर

(ग)	नगर/ग्राम—खापाकरीमवार, प.ह.नं. 60/23 ब.नं. 74, रा.नि.मंडल-सौंसर.	(1)	(2)
(घ)	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल— 78.652 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	71	1.995 कुआ कच्चा-2, वि.पं., संतरा-600, सागौन-20, आम-2
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)		
		72	2.161 महुआ-3
2/3	2.000	73/2	1.492
61	0.737 आम-1, सागौन-4	75/1	1.214
24/1	0.445	75/4	1.171
24/4	0.647	78	0.421 कुआ कच्चा-1
24/6	0.647		वि.पं.
24/7	0.121 कुआ पक्का-1, वि.पं.	112/5	0.830
24/8	0.526	80/1	0.850 कुआ कच्चा-1, वि.पं. नीम-1
24/9	0.647		
27	0.628 कुआ पक्का-1, वि.पं. सागौन-10	80/2	0.850
		112/4	0.599
		112/7	0.162
35	3.318	112/8	0.274
44	2.602	80/3	0.898
41/1	0.922 कुआ पक्का-1	81/1	1.521
41/7	0.405 संतरा-275, सागौन-15	81/4	0.850
41/3	1.619	81/5	1.295
41/4	1.214	82/1	2.024 कुआ पक्का-1
52/2	0.300	83/1/1	1.417
93	0.680	83/1/2	1.417
52/3	1.064	83/1/3	2.075
138/2	1.000	83/1/4	3.187
63/1	0.838 कुआ कच्चा-1 वि.पं.	86/1	0.603 सागौन-5
64	1.141	86/2	0.603
66/2	2.116	86/3	0.603
67/1	2.226	87/3	0.288
68	0.061	88	0.291
73/1	1.431		

(1)	(2)	(1)	(2)
89	1.234	135/1	0.432 सागौन-5
90	0.210	135/2	0.609 महुआ-2
94/2	1.610	138/3	0.484
94/8	0.662	योग . .	<u>78.652</u>
97	0.073		
107	0.101	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली	
103/2	1.254	संपत्तियाँ—कुआ-10, बोरवेल-1, विभिन्न प्रजातियों	
104/1	0.738	के वृक्ष-944.	
104/2	0.739 सागौन-1	(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक	
	बोरवेल-1	प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता	
106	0.866	है.—विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi-Product Special	
111	1.700	Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के	
112/2	0.405	अर्जन के संबंध में.	
110/2	0.911	(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का	
112/1	1.659 कुआ पक्का-1,	नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा	
	वि.पं.	छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा	
112/6	0.324	सकता है.	
112/3	0.231	(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का	
114/1	0.239	नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं	
116	0.485	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील सौंसर, जिला	
114/2	0.910	छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा	
117	0.494	सकता है.	
120/1	1.214	(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे	
120/2	0.417	(प्लान) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा	
124/2	1.006	प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9, इमामबाड़ा रोड नागपुर	
125/2	1.129	(महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	
128	1.250	(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा	
130/2	0.210	(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंध संचालक मेसर्स	
130/3	0.210	छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय-	
130/4	0.210	गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला	
130/5	0.210	छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	
		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
		महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 जनवरी 2014

क्र. 113-प्र. भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर
(ग) ग्राम—हीरापुर, खमकुआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.740 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम-हीरापुर	
436	0.080
435	0.090
41	0.160
44	0.120
49	0.090
50	0.110
48/2	0.070
48/3	0.070
योग . .	0.790

ग्राम-खमकुआ

682	0.180
686/2	0.180
544	0.080
564	0.030
610	0.060
612/1	0.220
612/2	0.260
613/2	1.000
693	0.010
695	0.140
696	0.040
709/1	0.130
709/6	0.030
709/7	0.120

(1) (2)

709/8	0.030
710	0.110
714	0.030
715	0.050
717/2	0.020
720	0.200
740/1	0.030
योग . .	2.950
महायोग . .	3.740

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—सूखानाला जलाशय अन्तर्गत खमकुआ माईनर नहर निर्माण में प्रस्तावित भूमि के भू-अर्जन बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 114-प्र. भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर
(ग) ग्राम—रजौआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.393 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
639	0.300
358	0.093
योग . .	0.393

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—बदौना जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर मालवा, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

आगर मालवा, दिनांक 17 अक्टूबर 2013

क्र. भू अर्जन-6.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—आगर मालवा
(ख) तहसील—आगर मालवा
(ग) ग्राम—सिंगावद एवं कानड
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि सिंगावद 4.91 हे.
ग्राम 0.366 हे. कुल—5.276 हे.

सर्वे क्षेत्रफल जो अर्जन होना है
क्रमांक (हे. में)
(1) (2)

ग्राम—सिंगावद

57, 58, 59	0.24
61	0.44
65, 66, 67, 68	0.33
96, 98	0.28
134	0.13
137	0.21
144	0.21
145	0.21
268	0.22
274	0.17
266	0.35
267	0.30
63	0.26
64	0.23
69	0.05
136	0.17
70	0.05
74	0.10
75	0.10

(1) (2)

76	0.07
79	0.03
77	0.02
83	0.08
71	0.05
84	0.19
132	0.19
131	0.15

योग . . 4.91

ग्राम—कानड

1923/1	0.105
1950, 1951, 1949	0.157
1923/2	0.052
1923/4	0.052

योग . . 0.366

महायोग . . 5.276

नोट.—(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—टिल्लर परियोजना की नहर निर्माण में आने के कारण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी आगर बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. 13-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—दतिया

(ग) ग्राम—खैरी	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.40 हेक्टेयर.	
खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
195	0.44
193	0.05
201	0.22
198	0.35
199	0.17
187	0.17
	योग : 1.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत खैरी लरायटा लघु सिंचाई योजना की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 14-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—दतिया
(ग) ग्राम—लरायटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.58 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16	0.02
17	0.06
18	0.06
34	0.26
35	0.26
42	0.17
43	0.23

(1)	(2)
44	0.13
66	0.15
67	0.15
68	0.05
69	0.04
	योग : 1.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत खैरी लरायटा लघु सिंचाई योजना की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्र. क-भू. अ. वि. अ.-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि का अर्जन

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—दमोह
(ग) ग्राम—रियाना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.029 हेक्टर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
8	0.55
10/1	0.45
5	0.55
6/1	0.57
4	0.479

(1)	(2)
7/1	0.34
2	1.20
16/1	0.488
3	0.47
44/1	0.132
46/1 में से	0.60
627 में से	0.20
योग . .	<u>6.029</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रियाना जलाशय के निर्माण किये जाने बाबत के कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क-भू. अ. वि. अ.-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि का अर्जन

- (क) जिला—दमोह
- (ख) तहसील—दमोह
- (ग) ग्राम—घाट पिपरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.93 हेक्टर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
273/1	0.72
275	0.12
410/4	0.09
योग . .	<u>0.93</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—घाटपिपरिया स्टापडेम का निर्माण किये जाने बाबत के कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क-भू. अ. वि. अ.-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि का अर्जन

- (क) जिला—दमोह
- (ख) तहसील—दमोह
- (ग) ग्राम—करैया हजारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.50 हेक्टर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
316	1.00
317/1	1.00
317/2	1.00
317/3	1.75
318 में से	0.15
319 में से	0.60
323 में से	1.00
योग . .	<u>6.50</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिद्धबाबा जलाशय के निर्माण किये जाने बाबत के कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्र. भू. अर्जन-09 (अ-82)-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा,

यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला

(ख) तहसील—घुघरी

(ग) ग्राम—बनियातारा, सालीवाड़ा, रैगांव प.ह.नं. 26,

सुड़गांव, डोंगरगांव प. ह. नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल—42.53 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम—बनियातारा

बन्ड लाइन

92 0.30

97 0.09

261/2 0.62

259/2 0.05

258/2 0.30

258/3 0.45

256 0.24

257/2 0.24

255/1 0.06

243/2 0.06

योग . . 2.41

डूब क्षेत्र

257/1 2.40

257/2 0.36

258/1 0.38

259/1 0.06

258/2 0.09

261/3 0.80

261/2 0.29

317 0.44

319 0.60

316 0.72

315 1.35

309 0.08

310 0.29

312 1.32

311 0.12

262 0.36

313 0.13

291 1.57

(1)

(2)

290/1

0.32

290/2

0.72

289

0.18

263

3.95

264

1.63

269

0.18

271

0.72

299

0.06

281

0.32

283

0.89

284

0.60

296

0.05

303

0.03

285

0.22

286

0.17

298/1

0.75

101/3

0.06

298/2

0.76

101/4

0.06

300

0.43

97

1.00

98

1.41

99

2.20

100

0.12

101/1

0.06

101/2

0.06

326

0.66

योग . . 28.97

छांटा

92

0.54

93

0.06

90/8

0.20

90/5

0.36

90/4

0.36

90/1

0.36

90/2

0.10

90/3

0.10

योग . . 2.08

बांया तट मुख्य नहर

243/1

0.06

242/2

0.03

241

0.06

183

0.02

(1)	(2)	दांया तट नहर माइनर	
240	0.05	38/1	0.06
237	0.01	36/1	0.02
239	0.10	36/4	0.02
238	0.03	36/6	0.02
236	0.03	36/7	0.02
232/2	0.01	36/8	0.02
209	0.07	58	0.18
210/3	0.03	54/2	0.02
206/5	0.21	योग .	0.36
182	0.04	ग्राम—साली वाडा बांयी नहर	
197	0.02	13/3	0.02
190	0.02	13/2	0.08
193	0.02	101	0.03
195	0.02	100	0.01
200	0.09	97/1	0.05
योग .	0.92	98	0.03
बांया तट नहर माइनर		94	0.03
193	0.02	93	0.02
161/1	0.04	92	0.02
161/9	0.03	91	0.05
161/3	0.03	89	0.02
161/2	0.04	86	0.03
163	0.02	88/1	0.04
161/11	0.01	50/2	0.05
योग .	0.19	87	0.03
दांया तट मुख्य नहर		50/6	0.07
92	0.04	50/1	0.05
90/6	0.04	50/4	0.05
90/7	0.04	48/2	0.05
91	0.03	47	0.03
17	0.17	42/2	0.02
26	0.05	42/3	0.02
38/1	0.11	39	0.05
38/2	0.04	37	0.07
39	0.01	23	0.01
40	0.07	28/1	0.05
41	0.07	24	0.03
43/4	0.10	26	0.08
44	0.05	योग .	1.09
7	0.11	बांया तट माइनर	
5/5	0.03	384	0.06
5/8	0.01	374	0.05
5/7	0.01	373/3	0.035
योग .	0.98	364/2	0.015

(1)	(2)	(1)	(2)
365	0.07	97	0.03
364/1	0.07	98/2	0.03
285	0.04	93/1	0.03
291/1	0.04	95	0.05
291/2	0.02		योग . 1.15
292	0.08		बांया तट माइनर
298	0.02	65	0.03
299/3	0.03	64	0.03
299/2	0.005	63/1	0.05
299/1	0.045	63/2	0.05
305	0.03	63/3	0.06
306	0.03		योग . 0.22
307	0.05		ग्राम—सुड़गांव दां. त. मु. न.
200/1	0.02	32	0.10
200/3	0.02	31/1	0.07
204	0.02	30	0.07
206	0.03	29	0.08
208	0.035	49/5	0.01
209	0.02	52	0.03
	योग . 0.835	54/1	0.06
	ग्राम—खयगांव मा. बां. न.	55/1	0.06
15	0.04	56	0.06
14	0.02	57	0.03
17	0.08	58/2	0.03
16	0.15	173/1	0.02
	योग . 0.29	58/4	0.03
	बांया तट नहर	173/7	0.02
15	0.13	58/6	0.03
21	0.08	173/4	0.02
22/2	0.03	58/9	0.03
65	0.03	173/5	0.02
75	0.19	71/2	0.01
76/2	0.03	70/1	0.13
76/4	0.03	74	0.03
77	0.01	75/1	0.015
78	0.11	75/2	0.015
79/1	0.18	79/4	0.01
277/82	0.14	81	0.01
87/2	0.02	83	0.08
87/1	0.03	87/2	0.025
		87/3	0.025
		88	0.010
		89	0.015

(1)	(2)
176/3	0.065
175/1	0.065
174	0.01
173/2	0.02
178/1	0.03
178/12	0.03
178/14	0.02
178/22	0.03
178/16	0.02
179	0.01
181/1	0.02
180	0.05
282/1	0.08
योग .	1.595

दांयी तट मा. एन-2

30	0.05
48/1	0.04
48/2	0.04
47	0.04
44	0.04
46/4	0.04
225	0.04
229/1	0.02
229/2	0.02
229/3	0.02
232/1	0.06
252/1	0.08
258/1	0.03
योग .	0.52

दांयी तट मा. एन-3

175/1	0.02
175/2	0.04
178/2	0.03
178/3	0.03
186	0.02
178/10	0.03
189/1	0.02
189/2	0.02
189/3	0.03
189/4	0.03
281	0.01
278/2	0.02
279	0.03
280/3	0.04

(1)	(2)
280/9	0.03
280/6	0.03
297/2	0.03
302	0.03
303/4	0.03
योग .	0.51

ग्राम—डोंगरगांव दा. त. मु. न.

182	0.05
159/3	0.03
159/5	0.03
159/2	0.02
160	0.06
153/1	0.11
152/2	0.08
159/4	0.03
योग . .	0.41
महायोग .	.42.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बनियातारा जलार्शय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग निवास में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्र. 5854-दस-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—सोहागपुर

(ग) ग्राम—सारंगपुर पटवारी हल्का नम्बर-112

(घ) लगभग क्षेत्रफल—32.440 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
509	0.580
505	0.020
518/2	0.425
519/2	1.566
508	0.016
510	0.020
511	0.061
512/1/ग	0.462
515	5.346
512/1/ख	6.546
531	0.008
532	1.280
513	0.470
514	2.370
516	0.356
517	1.133
518/1	1.023
519/1	4.568
533/1/क	0.081
512/2	0.140
497/2	0.202
335/1	0.028
367	0.045
365	0.057
370	0.061
409	0.077
413	0.045
524	0.036
414	0.045
522	0.032
525/1	0.032
516	0.004
494	0.020
495/1/क	0.036
495/1/ख	0.028
495/2	0.024
496/1	0.045
497/1/क	0.020
497/1/ख	0.032
497/2	0.057

(1)	(2)
498	0.065
515	0.032
498	0.415
530	1.358
497/1/ख	0.912
497/1/ग	1.214
533/2	0.446
533/1/ख	0.240
489	0.081
337/1	0.059
512/1/ख	0.032
489	0.024
248	0.020
274	0.081
279	0.012
277/1	0.032
343	0.020
योग . .	<u>32.440</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सारंगपुर जलाशय योजना हेतु प्रभावित ग्राम सारंगपुर की निजी भूमि रकबा 32.440 हे. का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी, जैतपुर जिला शहडोल में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 5855-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—ब्यौहारी
(ग) ग्राम—बनासी, पटवारी हल्का टेटका नम्बर 22.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.774 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
16	0.648
17	0.575

(1)	(2)	(1)	(2)
19	0.583	57/2ख	0.076
20/1	0.036	49/2क	0.058
20/2	0.032	125/1	0.017
20/3 क	0.092	162/1	0.005
20/3 ख	0.092	49/2 ख	0.058
20/3 ग	0.092	125/2	0.017
20/4 क	0.035	162/2	0.005
20/4 ख	0.034	49/2ग	0.058
20/5 क	0.006	125/3	0.017
22/1	0.070	162/3	0.005
20/5 ख	0.006	49/2 घ	0.058
22/2	0.071	125/4	0.017
20/5 ग	0.006	162/4	0.005
22/3	0.071	57/3/1	0.076
20/5 घ	0.006	57/4	0.076
22/4	0.071	57/5	0.076
20/6	0.096	56/1	0.020
21/1	0.250	113/337	0.180
25/1	0.128	116	0.300
21/2	0.249	124	0.190
25/2	0.128	113/2	0.015
21/2	0.250	114/1	0.057
25/3	0.128	114/2	0.057
35/1	0.197	114/3	0.057
35/2	0.197	114/4	0.057
35/3	0.197	117	0.120
172/6	1.165	108	0.080
15/2	0.397	कुल योग . . 11.774	
172/5	2.521	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बनासी जलाशय योजना निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम बनासी की रकबा 11.774 हे. निजी भूमि का अर्जन.	
172/7	0.793	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यूहारी, जिला शहडोल में किया जा सकता है.	
35/1	0.021	क्र. 5856-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 16-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
56/2	0.020	अनुसूची	
35/2	0.021	(1) भूमि का वर्णन—	
56/3	0.020	(क) जिला—शहडोल	
35/3	0.021	(ख) तहसील—जयसिंहनगर	
56/4	0.020		
37/1	0.080		
37/2	0.080		
37/3	0.080		
37/3	0.080		
37/5	0.080		
37/6	0.080		
49/1क	0.058		
57/2क	0.076		
49/1ख	0.058		

(ग) ग्राम—रेउसा, पटवारी हल्का टेटका नम्बर 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.256 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
204	0.227
205	0.450
215	0.237
211	0.410
212	0.141
213	0.097
214	0.570
221	0.097
224	0.072
225	0.182
229	0.072
228	0.072
230	0.072
231	0.030
177	0.050
180	0.060
232	0.030
167	0.080
293	0.080
183	0.080
189	0.050
292	0.097

कुल योग . . 3.256

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बनासी जलाशय योजना निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम रेउसा की रकबा 3.256 हे. निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्र. 5059-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया

(ख) तहसील—नौरोजाबाद

(ग) ग्राम—सजनिया, पटवारी हल्का नं. ठूँठाकुदरी नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.189 हेक्टेयर

अशासकीय (निजी) भूमि

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
147/3	0.910
251/3	0.800
251/4	1.011
255/8	0.300
251/5	0.405
251/6	0.809
251/7	0.710
251/9	0.809
255/5	0.205
255/4	0.350
255/7	0.440
144/280/1	0.733
144/280/2	0.734
144/280/3	0.734
141	0.240
32/2क/1	0.048
31	0.096
29/1	0.120
147/3	0.096
145	0.372
146	0.156
144	0.048
143/3	0.060
151/7	0.240
147/267	0.186
109	0.106
142/1	0.168
39	0.144
140/3	0.060

(1)	(2)	253/2	0.020
77	0.062	255/2	1.200
79	0.034	140/2	0.072
32/1	0.120	76/3	0.060
80	0.038	106	0.110
121/2	0.120	111/2	0.023
149/275	0.048	152/2	0.060
29/2	0.182	151/2	0.144
99	0.144	166/2	0.002
101	0.086	168/2	0.002
116/1	0.077	243/1	0.060
118	0.140	242/2	0.048
119/1	0.120	कुल योग . .	17.831
151/274	0.077	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सजनिया जलाशय योजना, शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.	
151/8	0.216	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय जिलाध्यक्ष उमरिया (म.प्र.) एवं कार्यालय कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया (म.प्र.) में किया जा सकता है.	
165/2	0.264	(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है.	
167/1	0.144	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
169	0.216	सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
172/1	0.012		
231/1	0.031		
231/2	0.031		
172/2	0.012		
243/269	0.038		
243/2	0.192		
233/3	0.230		
233/2	0.072		
232/1	0.062		
232/2	0.062		
229/1	0.027		
230/1	0.022		
36/2	0.024		
229/2	0.026		
230/2	0.021		
36/1	0.016		
36/2	0.008		
35/264	0.020		
38/265/3	0.035		
38/265/2	0.035		
38/265/1	0.035		
कुल योग . .	14.189		

शासकीय भूमि

147/2	1.200
148/2	2.380
149/2	1.600
251/2	10.850

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-723.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—पिछोर

(ग) नगर ग्राम—खैरोना

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.933 है.

अनुसूची

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
59/1	0.280
59/2	0.202
76	0.030
77	0.041
78	0.004
79	0.036
80	0.035
113	0.150
120	0.005
121	0.092
122	0.014
123	0.040
126	0.004

कुल योग . . 0.933

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सुनाज तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिछोर जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 8-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—नसरुल्लागंज

(ग) नगर/ग्राम—सुकरवास

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.237 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

57/1/2/1, 57/2, 58, 59 0.314

57/1/2/2, 57/2, 58, 59 0.241

(1)

(2)

57/1/2/3/1, 57/2, 58, 59 0.112

57/1/2/3/2, 57/2, 58, 59 0.120

57/1/1, 57/2, 58, 59 0.210

55/1/1/1क, 56, 68, 70 0.299

55/1/1/1ख, 56, 68, 70 0.283

55/1/1/2/1, 56, 68, 70 0.410

55/1/1/2/2, 56, 68, 70 0.048

55/1/5/1, 56, 68, 70 0.319

55/1/5/2, 56, 68, 70 0.327

191/2 0.320

55/1/6/1/1क, 56, 68, 70 0.110

55/1/6/1/2क, 56, 68, 70 0.140

55/1/7/8, 56, 68, 70 0.020

55/1/7/1, 56, 68, 70 0.147

55/1/8/1, 56, 68, 70 0.396

55/1/8/2, 56, 68, 70 0.065

94/1 0.308

93, 197/2/2क 0.463

93, 197/1/1 0.480

203/1क 0.332

203/1ख 0.330

201/1 0.300

201/2 0.053

202/1 0.275

202/2 0.157

191/1/1 0.054

216/1 0.081

218, 219/2/1 0.162

216/2 0.041

218, 219/2/2 0.220

184, 190/4/5 0.096

184, 190/4/4 0.096

184, 190/4/3 0.096

184, 190/4/2 0.096

184, 190/4/1 0.096

184, 190/2/1 0.077

184, 190/2/2 0.085

184, 190/2/3 0.186

184, 190/3 0.269

184, 190/1/4 0.003

कुल योग . . 8.237

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—घोंघरा मध्यम परियोजना बगबाड़ा वितरिका भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

क्र. 712-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	2.094	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन.	लखापुरा तालाब योजना के शीर्ष कार्य के डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

रा. प्र. क्र. 13अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	बुरहानपुर	बड़गाँवमाफी	1.186	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड संभाग क्र. 1 इन्दौर.	बुरहानपुर देड़तलाई राज्यमार्ग क्र. 50 के उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु टोल प्लाजा निर्माण हेतु निजीभूमि अधिग्रहण.

भू-अर्जन हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम संभाग क्रमांक-1, इन्दौर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 149-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	डुंगरहो	निजी भूमि रकबा 5.500 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 3.638 है. कुल रकबा 9.138 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-2013-14-भदोरा-466—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)	(5)	(6)
गुना	गुना	भदौरा	कुल किता-6 3.292	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गुना.	मगरधा लघु सिंचाई परियोजना शेष छूटी हुई अशासकीय भूमिओं का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. 3083-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 02-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर में	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	पानसेमल	पाडल्या	27.357	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	गोमाई नदी तालाब योजना के
		योग . .	27.357	संभाग, बड़वानी.	निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पानसेमल, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुभाग-पानसेमल के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 14 जनवरी 2014

क्र. 17-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 03-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर में	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	पानसेमल	निहालअम्बा	31.798	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	गोमाई नदी तालाब योजना के
		योग . .	31.798	संभाग, बड़वानी.	निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पानसेमल, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुभाग-पानसेमल के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 15-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 04-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों

के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर में	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	पानसेमल	मालकातर	22.178	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	गोमाई नदी तालाब योजना के
		योग . .	22.178	संभाग, बड़वानी.	निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पानसेमल, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुभाग-पानसेमल के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 16-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 05-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	पानसेमल	हरणया	32.009	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	गोमाई नदी तालाब योजना के
		योग . .	32.009	संभाग, बड़वानी.	निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पानसेमल, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुभाग-पानसेमल के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 3 जनवरी 2014

क्र. 546-भू-अर्जन-डॉ. अम्बेडकर नगर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि

उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1)(4) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)	टिही	5.086	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इंदौर.	नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना से औद्योगिक क्षेत्र पिथमपुर को एन.व्ही.डी.ए. द्वारा निर्मित ब्रेक प्रेसर टैंक, सिमरोल से 90 एम. एल.डी. जल प्रदाय करने बाबत.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 7 जनवरी 2014

क्र. क्यू-भू-अ.-28.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका/	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	करैरा	सिल्लारपुर	40	0.12	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	महुअर मध्यम परियोजना
			43	0.05	संभाग शिवपुरी जिला शिवपुरी,	के अंतर्गत दायी तट
			44	0.12	म. प्र.	नहर की टेल माईनर
			53	0.01		एवं उपशाखा क्र. 16
			239	0.01		की सब शाखा क्र. 1
			240	0.03		आर एवं 1 आर के
			242	0.08		निर्माण कार्य हेतु.
			257	0.11		
			258	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			259/1	0.02		
			1673	0.01		
			1674	0.14		
			1676	0.02		
			1687	0.18		
			1691	0.12		
			1695	0.06		
			1696	0.02		
			1703	0.07		
			योग	1.21		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अ.-29.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका/	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	करैरा	सिरसौद	812	0.03	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	महुअर मध्यम परियोजना
			813	0.03	संभाग शिवपुरी जिला शिवपुरी,	के अंतर्गत बांयी तट
			814	0.05	(म. प्र.)	नहर की उपशाखा क्र.
			816	0.06		11 आर की सब शाखा
			817	0.04		क्र. 1 एल तथा माईनर
			821	0.20		क्र. 13 आर की सब
			823	0.07		शाखा क्र. 1 एल एवं 2
			836	0.01		एल के निर्माण कार्य हेतु.
			837	0.05		
			1053	0.02		
			1054	0.12		
			1056	0.04		
			1059	0.03		
			1060	0.03		
			1061	0.06		
			1062	0.03		
			1075	0.02		
			1076	0.08		
			1081	0.02		
			1087	0.05		
			1088	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1091	0.07		
			1448	0.02		
			1450	0.01		
			1452	0.03		
			1454/मिन-1	0.07		
			1456	0.04		
			1466	0.05		
			1467	0.03		
			1468	0.01		
			1470	0.03		
			1471	0.04		
			1497/2/1/मिन-1	0.03		
			2076	0.03		
			2077	0.13		
			2078/1	0.05		
			2078/2	0.05		
			2124	0.01		
			2125	0.06		
			2126	0.01		
			2127	0.15		
			2137	0.01		
			2138	0.05		
			2140	0.02		
			2141	0.06		
			2142	0.01		
			2146	0.07		
			2151	0.02		
			2163	0.02		
			2164	0.03		
			2165/1	0.06		
			2165/2	0.01		
			2273	0.01		
			2275	0.08		
			2276	0.05		
			2277/1	0.02		
			2277/2	0.05		
			2278	0.06		
			2279	0.02		
			2281/मिन-1	0.05		
			2281/मिन-2	0.05		
			2285	0.13		
			4295	0.07		
			4303	0.08		
			4304	0.04		
			4305	0.03		
			4307	0.05		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			4323	0.01		
			4324/1	0.09		
			4324/2	0.08		
			4327/1	0.08		
			4327/2	0.08		
			4328	0.09		
			4353	0.04		
			4523	0.15		
			4534	0.10		
			4535	0.04		
			4536	0.05		
			4538	0.02		
			4540/1/1	0.02		
			4542	0.09		
			4543	0.09		
			4750	0.05		
			कुल किता. . 4.21			

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अ.-30.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	करैरा	सलैया	1545	0.04	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी, जिला शिवपुरी म. प्र.	महुअर मध्यम परियोजना की बांयी तट नहर की उपशाखा क्र. 5 एल की सबशाखा क्र. 1 आर के निर्माण कार्य हेतु.
			1547	0.05		
			1548	0.09		
			1549	0.04		
			1552	0.01		
			1553	0.02		
			1554	0.11		
			1561	0.03		
			1590	0.06		
			1591	0.03		
			1598	0.07		
			1599	0.05		
			1600	0.01		
			1601	0.05		
			1612	0.07		
कुल . .				0.73		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 2-अ-82-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—खरगापुर

(ग) नगर/ग्राम—गुना

(घ) लगभग क्षेत्रफल—30.945 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

160

1.081

170

0.032

157

0.036

158

0.105

159

0.181

161

0.081

167

0.129

169

0.057

171

1.833

172

0.085

173

0.291

174

0.053

175

0.547

176

0.563

178

0.158

177

0.125

179

0.570

293

0.041

294

0.004

297

0.069

300

0.093

301

0.121

(1)

(2)

305

0.061

306

0.049

309

0.214

310

0.388

311

0.380

312

0.352

2055/2

0.177

2087

0.077

2090

0.032

2088

0.105

2089

0.194

2090/2958

0.065

2090/2059

0.061

2090/2960

0.032

2091

0.255

2092

0.073

2062/2955

0.028

2082/2956

0.040

2093

0.129

2097

0.733

2096

0.603

2094

0.146

2095

0.247

2098

0.271

2101

1.123

2106/2

1.058

2106/3

1.342

2107

1.422

2108

0.559

2110

0.028

2114

0.069

2111

0.186

2118

0.219

2112

0.125

2116

0.271

2117

0.008

2120

0.101

2113

0.101

2115

0.247

2119

0.085

2121

0.239

2122

0.101

2123

0.166

2124

0.028

(1)	(2)	(1)	(2)
2125	0.214	2170	0.380
2126	0.356	2168	0.028
2128	0.101	2178	0.582
2129	0.234	2109	0.125
2130	0.186	2179	0.235
2132	0.113	2180	0.048
2133	0.178	2073	0.300
2127	0.183	2054	0.500
2131	0.121	275/1ब	0.085
2134	0.320	275/1	0.093
2151	0.263	275/स	0.032
2154	0.279	284	0.048
2155	0.113	285	0.089
2157	0.061	287	0.219
2136	0.214	288	0.085
2137	0.020	290	0.019
2138	0.028	291	0.065
2139	0.332	298	0.089
2140	0.271	299	0.134
2144	0.393	303	0.028
2141	0.348	304	0.016
2145	0.053	307	0.102
2146	0.040	292	0.016
2150	0.049	—	—
2135	0.320	—	—
2142	0.154	योग . . 30.945	
2143	0.146	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता	
2147	0.073	है—देवपुर तालाब के बांध डूबक्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.	
2148	0.146	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	
2149	0.142	एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री	
2152	0.142	जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के	
2153	0.129	कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	
2156	0.109	क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 3-अ-82-2013.—चूंकि, राज्य शासन	
2158	0.049	को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची	
2159	0.995	के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित	
2160	0.045	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन	
2161	0.036	अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के	
2162	0.332	अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की	
2163	0.194	उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
2165	0.263	अनुसूची	
2166	0.644	(1) भूमि का वर्णन—	
2167	0.352	(क) जिला—टीकमगढ़	
2169	0.170	(ख) तहसील—खरगापुर	
2164	0.271		

(ग) नगर/ग्राम—चौबारा		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.647 हेक्टेयर.			
खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
1379	0.032	1480	0.089
1406	0.196	1481	0.117
1400	0.154	1482	0.109
1401	0.130	1483	0.109
1391	0.070	1484	0.125
1397	0.190	1485	0.902
1399	0.194	1474	0.166
1398	0.336	1468	0.138
1408	0.109	1469	0.275
1410	0.190	1501	0.182
1411	0.070	1500	0.101
1448	0.125	1492	0.101
1446	0.138	1496	0.024
1479	0.117	1502	0.097
1444	0.060	1493	0.214
1451	0.049	1503	0.101
1454	0.069	1494	0.036
1455	0.190	1497	0.032
1456	0.032	35/2	0.142
1463	0.045	109/924	0.316
1389	0.060	36/2	0.024
1447	0.283	1516	0.101
1450	0.200	1515	0.235
1452	0.368	1513	0.081
1453	0.049	1512	0.049
1461	0.024	1510	0.024
1458	0.061	1509	0.380
1460	0.036	1508	0.170
1462	0.061	1505	0.174
1464	0.057	1511	0.235
1465	0.073	1506	0.170
1467	0.053	1514	0.247
1457	0.125	1507	0.247
1459	0.263	1527	0.650
1466	0.049	1541	0.061
1470	0.198	1543	0.045
1471	0.105	1542	0.065
1472	0.077	1539	0.230
1473	0.024	1540	0.656
1475	0.020	1525	0.154
1476	0.194	1524	0.854
1477	0.097	1520	0.085
1478	0.105	1521	0.012
1478	0.024	1522	0.020
		1523	0.093
		1519	0.077
		1518	0.109
		1568	0.050

(1)	(2)	(1)	(2)
1576	0.057	833	0.004
1570	0.053	815	0.004
1574	0.053	840	0.405
1575	0.053	841	0.045
1569	0.030	842	0.134
1572	0.271	843	0.121
1565	0.004	844	0.053
1564	0.052	845	0.466
1550	0.040	846	0.032
1571	0.352	852	0.041
1563	0.054	848	0.008
1573	0.182	692	0.073
1544	0.785	693	0.036
1545	0.053	705	0.092
1546	0.227	706	0.226
1487/1579	2.411	712	0.097
1486	0.676	711	0.008
1487	0.016	707	0.045
1488	0.502	708	0.085
योग . .	19647	714	0.032
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—देवपुर तालाब के बांध डूबक्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.		713	0.053
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.		715	0.028
क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 4-अ-82-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		717	0.166
अनुसूची		719	0.044
(1) भूमि का वर्णन—		723	0.032
(क) जिला—टीकमगढ़		735	0.166
(ख) तहसील—खरगापुर		730	0.117
(ग) नगर/ग्राम—बनपुरा सापौन		731	0.008
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.568 हेक्टेयर.		732	0.008
खसरा नं.	रकबा	733	0.053
	(हेक्टेयर में)	727	0.174
(1)	(2)	722	0.170
813	0.004	721	0.097
834	0.004	738	0.138
		737	0.024
		734	0.045
		720	0.085
		736	0.044
		718	0.081
		746	0.097
		747	0.008
		763	0.057
		740	0.016
		739	0.008
		741	0.142
		744	0.251
		745	0.036
		748	0.113
		749	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
750	0.161	22	0.261
751	0.275	23	0.121
753	0.097	24	0.020
754	0.271	25	0.238
755	0.008	31	0.480
756	0.121	32	0.380
758	0.081	30	0.040
742	0.012	28	0.081
743	0.109	29	0.016
752	0.129	33	0.089
757	0.020	35/1	0.032
—	—	36/1	0.045
योग . . . 5.568		110/द/2	0.154
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—देवपुर तालाब योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.		59/4	0.016
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलदेवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.		61/5	0.040
क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 5-अ-82-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		35/2	0.016
अनुसूची		109/924	0.036
(1) भूमि का वर्णन—		36/2	0.028
(क) जिला—टीकमगढ़		40	0.138
(ख) तहसील—खरगापुर		56	0.158
(ग) नगर/ग्राम—देवपुर		61/1	0.020
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.471 हेक्टेयर.		43	0.214
खसरा नं.		52	0.121
रकबा		59/3	0.008
(हेक्टेयर में)		35/3	0.008
(1)	(2)	36/3	0.012
12	0.004	61/2	0.012
15	0.081	109/द	0.150
13	0.024	37	0.089
14	0.008	46	0.142
18	0.081	35/4	0.008
19	0.279	48	0.186
20/1	0.077	110/द/1	0.028
20/2	0.077	36/4	0.036
21	0.045	59/2	0.012
		61/3	0.008
		38	0.190
		55	0.251
		59/5	0.008
		61/4	0.020
		47	0.097
		58	0.125
		39	0.138
		54	0.251
		59/1	0.004
		110अ	0.032
		110	0.181
		41	0.502
		42	0.194
		44	0.190

(1)	(2)
51	0.138
57	0.125
45	0.239
50	0.162
49	0.020
53	0.008
61/1/अ	0.049
62	0.032
63	0.036
65	0.166
72	0.324
75	0.089
61/3/अ	0.101
64	0.108
71	0.077
74	0.101
66	0.142
67	0.433
70	0.077
68	0.093
76	0.202
61अ/2	0.053
69	0.097
77	0.206
73	0.024
78/2	0.055
78/1	0.008
80	0.045
81	0.028
88/918	0.243
88/द/1	0.397
11	0.118
90	0.053
91	0.016
92	0.045
94	0.348
93	0.235
96/1	0.271
95	0.016
97	0.563
96/2	0.150
88/9/9	0.016
102	0.012
100	0.077
110 स	0.044
109 न	0.057
114	0.210
113	0.060

योग . . 12.471

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—देवपुर तालाब के बांध डूबक्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलदेवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 9 जनवरी 2014

क्र. 136-प्र.भू.-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—राहतगढ़
(ग) ग्राम—जलंधर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.51 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
170/1	0.06
573/2	0.02
112/2	0.43
योग . .	0.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—जलंधर जलाशय योजना के नहर कार्य एवं शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 7 जनवरी 2014

क्र. 116-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	करनवास	0.450	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	कुशलपुरा तालाब की मुख्य एवं
		किशनपुरा	0.321	संभाग, नरसिंहगढ़.	माईनर नहर में भूमि का अर्जन.
		टांडी	0.175		
		झूमका	0.730		
		नाईहेड़ा	0.200		
		सूरजखेड़ी	0.050		
		हाथीकुमारा	0.350		
		रायपुरिया	0.130		
		योग . .	2.406		

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2014

प्र. क्र. 14-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	भैरा	28.266	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	खौड़ेरा-2 तालाब योजना के
				टीकमगढ़.	डूब क्षेत्र हेतु.

प्र. क्र. 18-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	गेंदनताल	1.478	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़.	खौड़ेरा-2 तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

प्र. क्र. 19-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	खौड़ेरा	1.670	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़.	खौड़ेरा-2 तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2014

फा. क्र. 29-वि.निर्वा.-2009-4-08.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82-MP-LA-(29-2009)-2013, दिनांक 17 दिसम्बर 2013 सर्व-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है।

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001
नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2013, 26 अग्रहायण, 1935(शक)

अधिसूचना

सं. 82-म.प्र.-वि.स.-(29-2009)-2013.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, निर्वाचन याचिका संख्या 29/2009 (श्री कोकब ऐजाज बनाम श्री ध्रुव नारायण सिंह), मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन, 2008, 153-भोपाल मध्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, प्रिंसिपल बेंच, जबलपुर के अधिनिर्णय/आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2013 को प्रकाशित करता है।

आदेश से,

हस्ता./-

(बर्नाड जॉन)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110001

New Delhi, Dated 17th December 2013,
26 Agrahayana, 1935 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 82-MP-LA-(29-2009)-2013.—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the judgement / order of the High Court of Madhya Pradesh, Principal Seat at Jabalpur dated 29th November 2013 in Election Petition No. 29/2009 (Shri Kaukab Aizaz Vs. Shri Dhruv Narayan Singh, Madhya Pradesh Legislative Assembly

Election, 2008, 153-Bhopal Madhya Assembly Constituency.

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

Election Petition No. 29/2009

PETITIONER

Kaukab Aizaz S/o Late Shri Aizaz Husain,
aged about 47 years,
R/o 43 Ginnori Talaiya,
Bhopal.

Versus

RESPONDENT

Dhruv Narayan Singh S/o Shri Govind Narayan Singh,
aged about 50 years,
R/o E-1, 45 Banglows,
Bhopal,

ELECTION PETITION UNDER SECTION
80 A & 81 OF REPRESENTATION OF PEOPLE
ACT 1951

The petitioner respectfully begs to submit as under :—

- (1) That the petitioner and the respondent are Indian Citizens. The respondent has contested the last Legislative Assembly Election held on 27-11-2008 from constituency No. 153, Bhopal Madhya Assembly Constituency of Madhya Pradesh.
- (2) That the petitioner is a resident of Ward No. 25 Municipal Corporation, Bhopal and voter, in the voter list No. 153/69 published for election of Member of Legislative Assembly. In the voter list the petitioner name is figured at Sr. No. 404. The relevant extract of the copy of voter list is filed herewith as ANNEXURE-P/1.
- (3) That the Election Commission of India issued a Notification dated 14-10-2008 calling upon the Election of Member of the Legislative

Assembly of Madhya Pradesh, following
Election program was issued :—

ORDER

E. P. No. 29/2009

Date 29-10-2013

Shri R. K. Verma, Advocate for the petitioner.
Shri P. D. Gupta, Advocate for the respondent.

As prayed, list this petition in second week of
December, 2013.

Sd./-
(G. S. SOLANKI)
Judge.

Date 29-11-2013

Shri Shekhar Sharma, Advocate for petitioner.
Shri Gaurav Tiwari, Advocate for respondent.

Learned counsel for the petitioner has submitted that
since Assembly Elections of 2013 have already taken
place, nothing further survives in this matter and this
petition has become infructuous.

In view of the above, this petition is dismissed as
having been rendered infructuous.

Let Security Deposit amount be refunded to
the petition.

c. c. as per rules.

Sd./-
(G. S. SOLANKI)
Judge.

By Order,

Sd./-
(BERNARD JOHN)

Secretary,
Election Commission of India.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014

फा. क्र. 27-वि.निर्वा.-2009-4-11.—भारत निर्वाचन
आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82-MP-LA-(27-2009)-
2013, दिनांक 17 दिसम्बर 2013 सर्व-साधारण की जानकारी
के लिये प्रकाशित की जाती है.

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001
नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2013, 26 अग्रहायण, 1935(शक)

अधिसूचना

सं. 82-म.प्र.-वि.स.-(27-2009)-2013.—लोक प्रतिनिधित्व
अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण
में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, निर्वाचन याचिका संख्या
27/2009 (श्री तरुण शर्मा, बनाम श्री विश्वास सारंग), मध्यप्रदेश
विधान सभा निर्वाचन, 2008, 151-नरेला विधान सभा निर्वाचन
क्षेत्र में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, प्रिंसिपल बेंच, जबलपुर के
अधिनिर्णय/आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2013 को प्रकाशित
करता है.

आदेश से,

हस्ता./-
(बर्नार्ड जॉन)

सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110001

New Delhi, Dated 17th December 2013,
26 Agrahayana, 1935 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 82-MP-LA-(27-2009)-2013.—In pursuance of
Section 106 of the Representation of the People Act,
1951 (43 of 1951), the Election Commission of India
hereby publishes the judgement / order of the High
Court of Madhya Pradesh, Principal Seat at Jabalpur
dated 29th November 2013 in Election Petition
No. 27/2009 (Shri Tarun sharma Vs. Shri Vishwas
Sarang) Madhya Pradesh Legislative Assembly
Election, 2008, 151- Narela Assembly Constituency.

**THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR**

Election Petition No. 27/2009

PETITIONER

Tarun Sharma S/o Shri Deepak Sharma,
aged about 24 years,
R/o 52/1, Lala Lajpat Rai Colony,
Raisen Road, Bhopal.

Versus

RESPONDENT

Vishwas Sarang S/o Shri Kailash Sarang,
aged about 37 years.

R/o 1/2 Sheesh Mahal Road, Tah- Huzur,
Bhopal.

As prayed, list this petition in second week of
December, 2013.

**ELECTION PETITION UNDER SECTION 80 A & 81
OF REPRESENTATION OF PEOPLE
ACT 1951**

Sd./-
(G. S. SOLANKI)
Judge.

The petitioner respectfully begs to submit
as under :—

Date 29-11-2013

- (1) That the petitioner and the respondent are Indian Citizens. The respondent has contested the last Legislative Assembly Election held on 27-11-2008 from constituency No. 151-Narela Assembly Constituency of Madhya Pradesh.
- (2) That the petitioner is a resident of Ward No. 64 Municipal Corporation, Bhopal and voter, in the voter list No. 151/143 published for election of Member of Legislative Assembly. In the voter list the petitioner name is figured at Sr. No. 537. The relevant extract of the copy of voter list is filed herewith as ANNEXURE-P/1.
- (3) That the Election Commission of India issued a Notification dated 14-10-2008 calling upon the Election of Member of the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, following Election program was issued :—

Shri Shekhar Sharma, Advocate for the petitioner.

Ms. Chanchal Sharma, Advocate on behalf
Shri P. D Gupta, advocate for the respondent.

Learned counsel for the petitioner has submitted that since Assembly Elections of 2013 have already taken place, nothing further survives in this matter and this petition has become infructuous.

In view of the above, this petition is dismissed as having been rendered infructuous.

Let Security Deposit amount be refunded to the petitioner.

c. c. as per rules.

Sd./-
(G. S. SOLANKI)
Judge.

ORDER

E. P. No. 27/2009

Date 29-10-2013

Shri R. K. Verma, Advocate for the petitioner.
Shri P. D. Gupta, Advocate for the respondent.

By Order,

Sd./-
(BERNARD JOHN)
Secretary,
Election Commission of India.